



गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया दीपावली का शानदार तोहफा

80 करोड़ लोगों को 5 साल तक फ्री राशन

□ **आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय लेने की ताकत देता है : नरेंद्र मोदी**

एजेंसी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों गरीब लोगों को शनिवार को दिवाली का बड़ा तोहफा दे दिया। उन्होंने केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। इस योजना के तहत देश के करोड़ों गरीब लोगों को सरकार की ओर से राशन मुहैया कराया जाता है। योजना के विस्तार का ऐलान ऐसे समय किया गया है, जब एक सप्ताह बाद दिवाली का त्योहार है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने राशन मिलता है, पीएम मोदी ने इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। पीएम ने कहा, मैंने विश्वय

98 करोड़ सरकारी राशि निजी बैंक में रखने का मामला अब तत्कालीन भू-अर्जन अफसर पर होगी विभागीय कार्यवाही

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। नियमों का उल्लंघन कर 98 करोड़ रुपये निजी बैंक के खाते में रखवाने पर तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, देवघर उमाशंकर प्रसाद पर पेंशन नियमावली के तहत विभागीय कार्यवाही चलेगी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वर्तमान में रिटायर हो गये हैं। इनके खिलाफ देवघर उपायुक्त ने 2021 में आरोप पत्र गठित कर कार्यवाही की अनुशंसा की थी, जिसके बाद अब सरकार ने विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला लिया है। विभागीय

कोरोना काल में शुरू हुआ था, अब दिसंबर 2028 तक मिलता रहेगा लाभ



कर लिया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब 5 साल के लिए और बढ़ायेगी। आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय लेने की ताकत देता है।

बढ़ायेगी। आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय लेने की ताकत देता है।

महामारी के बाद हुई थी इस केंद्रीय योजना की शुरुआत

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बाद पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। कोरोना महामारी के बाद लोकेशन समेत कई सख्त पाबंदियां थीं। उससे लोगों की आजीविका पर असर हुआ था। खासकर गरीबों के सामने खाने-पीने का संकट उत्पन्न हो गया था। ऐसे में पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने गरीब आबादी की मदद के लिए फ्री राशन स्कीम की शुरुआत की थी। बताया जाता है कि इस योजना का लाभ 80 करोड़ देशवासी उठा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में पीएम ने किया ऐलान : पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने फ्री

दिसंबर में समाप्त हो रहा था समय



राशन स्कीम को पांच साल बढ़ाने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में इसी महीने चुनाव होने हैं। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को पांच किलो गेहूँ या चावल फ्री में केंद्र सरकार की ओर से मिलता है। इसे सबसे पहले 30 जून 2020 को शुरू किया था। उसके बाद इसे कई मौकों पर बढ़ाया जा चुका है। अभी यह योजना दिसंबर 2023 में यानी अगले महीने समाप्त होने वाली थी। अब 5 साल के विस्तार के बाद लोगों को दिसंबर 2028 तक इस योजना का लाभ मिलता रहेगा।

राशन स्कीम को पांच साल बढ़ाने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में इसी महीने चुनाव होने हैं। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा

झारखंड में इडी अफसरों की बढ़ायी गयी सुरक्षा सीआइएसएफ के सुरक्षा घेरे में रहेंगे इडी अधिकारी

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। झारखंड में घपले-घोटाले की जांच कर रहे इडी अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है। आरोपियों के द्वारा इडी अफसरों के खिलाफ साजिश रचने की सूचना पर यह कार्यवाही की गयी है। जानकारी के अनुसार इस संबंध में पुलिस मुख्यालय को भी पत्र लिखा गया है। वहीं, दूसरी तरफ मामला सामने आने के बाद सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया। जानकारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआइएसएफ को दी गई है। जानकारी के अनुसार इस



संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पत्र भी राज्य पुलिस को भेजा गया है, जिसमें इडी अफसरों की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिया गया है। झारखंड में जमीन घोटाला, अवैध खनन घोटाला समेत कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच से जुड़े इडी के अधिकारियों को न सिर्फ फर्जी मुकदमों में फंसाये की साजिश रची गयी थी। (शेष पेज 11 पर)

नेपाल में भूकंप से भारी तबाही, 160 की मौत

□ सैकड़ों घायल, भारत हर संभव सहायता को तैयार □ मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका, शनिवार को भी लगे झटके

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल में आये विनाशकारी भूकंप ने वहां भारी तबाही मचायी है। अबतक 160 लोगों की मौत हो गयी है। वहीं काफी संख्या में लोग घायल हो हैं। राहत बचाव कार्य जोरों पर है। पीएम दहल ने इस आपदा पर दुख जताया है। भारत ने आपदा की इस घड़ी में पड़ोसी देश नेपाल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। नेपाल में शुकुवार देर रात आये 6.4 तीव्रता के भीषण भूकंप का असर भारत के भी कई राज्यों पर पड़ा

भूकंप के समय अधिकतर लोग सो रहे थे

भूकंप के समय अधिकतर लोग पहले सो ही अपने घरों में सो रहे थे। भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसके झटके 800 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी नई दिल्ली में भी महसूस किये गये। हालांकि, भारत में इससे किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि, भूकंप के चलते लोग डर गये। भूकंप के बाद दिल्ली, लखनऊ, पटना समेत अन्य

जगहों पर लोग सड़कों पर देखे गये। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप की पारंपरिक तीव्रता 5.6 थी। यह जमीन की सतह से 11 मील की गहराई पर आया था। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र ने कहा कि इसका केंद्र जांजरकोट में था, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 250 मील उत्तर पूर्व में है।

भारत, नेपाल के साथ : मोदी- प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल में भूकंप के कारण हुई जान-माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर कहा, 'भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी सर्वेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।'

था। भूकंप के झटके भारत के दिल्ली, पंजाब, यूपी, झारखंड बिहार समेत उत्तरी राज्यों में भी महसूस किये गये थे। शनिवार को भी कई झटके महसूस किये गये।

अधिकारियों ने शनिवार तड़के कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कई स्थानों से संपर्क टूट गया है। (शेष पेज 11 पर)

मेहनत से रोशन करें घर, दिवाली पर घूमने लगे चाक

विदेशी लड़ियों की जगह दीयों के इस्तेमाल की अपील

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची, बोकारो। दीपावली की तैयारी जोरों पर है, कुम्हार दीये बनाने में जुट गये हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनकी दिवाली भी रोशन होगी। राजधानी रांची समेत बोकारो, पलामू, गढ़वा, धनबाद, चाईबासा समेत तमाम जिलों के कई कुम्हार अपने चाक से मिट्टी को दीये की आकार देने में जुट गये हैं। तमाम इलाकों में भी दीया बाजार सजने लगा है। पीएम मोदी के आह्वान लोकल फार वोकल व चीनी सामानों का बहिष्कार इन कुम्हारों की उम्मीदों को और बढ़ा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इस साल



पिछली दिवाली पर मिट्टी के दीये की बिक्री अच्छी हुई थी, जिससे मुनाफा भी अच्छा हुआ। इस बार भी कुम्हार लोगों से यही अपील करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को स्वदेशी पर ध्यान देना चाहिए और मिट्टी के दीये का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कुम्हार को अपनी परंपरा को बचाने में फायदा हो सके। उनकी दीपावली भी रोशन होगी। वे अपील कर रहे हैं कि विदेशी झालरों और लाइटों की जगह मिट्टी के दीये का इस्तेमाल करें।

□ **पीएम मोदी के आह्वान वोकल फार लोकल व चीनी सामानों के बहिष्कार ने बढ़ाया कुम्हारों का होशवा**

पिछले साल की तरह आमदनी की उम्मीद कुम्हारों की अपील है कि इस दिवाली भी लोगों को मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कुम्हारों को अपनी परंपरा को बचाये रखने में मदद मिल सके। कुम्हार दिन भर मिट्टी को पानी में मिगीकर रखते हैं और सुबह चाक पर रखकर उसे गढ़ते हैं। दीये बनाने वाले कुम्हारों का कहना है कि अमना अलग ही महत्व भी है। ऐसे में दिवाली नजदीक आते ही कुम्हार दीये बनाने में जुट गये हैं। (शेष पेज 11 पर)

भूमि विवाद में मारपीट, महिला की मौत शव के साथ परिजनों ने थाना में किया प्रदर्शन

□ **मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग**

खबर मन्त्र संवाददाता

धनबाद। जमीन विवाद में घायल बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत हो गयी। महिला की मौत से परिजन और आसपास के लोग आक्रोशित हो गये। परिजनों के संग बड़ी संख्या में लोगों ने शव थाना के बाहर प्रदर्शन किया। वे लोग मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मारपीट के दिन कोई घायल नहीं हुआ था। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई

वया कहते हैं लोग :

तिलिका देवी का कहना है कि निरसा के तेलुलिया निवासी उनके रिश्तेदार काजल, भूषण, टिकू और उज्वल समेत कुल सात लोगों ने घर में घुसकर जिसमें दो महिलाएं भी शामिल थीं। मारपीट के दौरान घर के कई लोग घायल हो गये। उनकी दादी पुचकी गवालिन भी घायल हो गयीं, जिसके बाद उन्हें एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया। शुकुवार की रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी।

वया कहते हैं थाना प्रभारी

वहीं थाना प्रभारी सुबेदार यादव ने कहा कि दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ था। दोनों परिवार के लोग थाना पहुंचे थे। उस दिन दोनों परिवार के बीच मुलह हो गयी थी, किसी के घायल होने की सूचना नहीं थी।

की जा रही है। घटना बलियापुर थाना क्षेत्र की है। बलियापुर थाना क्षेत्र के सुवरिया गांव में एक ही

परिवार के दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। मारपीट की घटना जमीन विवाद को लेकर हुई।

बाबूलाल ने एक्स पर शेयर किया वीडियो, कहा देवघर के धरबादी बालू घाट में बालू की खुलेआम डकैती



खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने इसके माध्यम से हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व सीएम के अनुसार यह वीडियो देवघर के धरबादी बालू घाट का है। यहां बिना टेंडर के बिना सीमांकन किए सैकड़ों ट्रेक्टर बालू का अवैध रूप से उठाव किया जा रहा है।

बाबूलाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शहर पर डीएमओ और खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा इस डकैती को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने

कहा है कि इसमें सल्लित अधिकारी यदि वे सोच रहे कि हेमंत सोरेन और सत्ता का संरक्षण उन्हें जेल जाने से बचा लेगा, तो होटवार जेल में हवा खा रहे अधिकारियों का हाल देख लें। पैसों की ये तलब आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी।

पूर्व सीएम ने कहा कि 15 अक्टूबर से ही एनजीटी का रोक हटने के बावजूद झारखंड सरकार ने यही डकैती कराने के लिए जानबूझकर बालू घाटों का टेंडर नहीं किया है। बाबूलाल ने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर पिछले चार सालों से बालू-पत्थर का लूट मचाते वाले एक भी दोषी को नहीं बखोशी जाएगी। चुन-चुनकर सबको जेल में डाला जाएगा।

राजभवन की पहल पर चांडिल डैम के विस्थापितों का आमरण अनशन खत्म

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। चांडिल डैम के विस्थापितों की आमरण अनशन शनिवार को खत्म हो गया। अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के संस्थापक सह अध्यक्ष राकेश रंजन महतो के नेतृत्व में पिछले 5 दिन से आमरण अनशन कर रहे चांडिल डैम के विस्थापितों की राज्यपाल से सकारात्मक वार्ता हुई। राजभवन के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग को अपना निर्देश जारी किया और सभी बिंदुओं को समझने के लिए विभाग को कहा। दस सूत्री मांगों में से वर्तमान में मुख्य चार बिंदुओं के लिए तत्काल कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी



करने की बातें हुई।

देर शाम प्रशांत कुमार, सचिव, डब्ल्यूआरडी से सकारात्मक वार्ता होने के बाद अधिवक्ता मदन महतो ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। 10 सूत्री मांगों में से पहला चांडिल डैम द्वारा विस्थापन के बदले में मिला अभावजा, प्राप्त नौकरी, निर्गत विकास पुस्तिका, प्राप्त पुनर्वास पैकेज तथा पुनर्वास स्थल पर आवंटित किया गया प्लॉटों का

पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश एंड कंपनी समेत आधे दर्जन को समन भेजने की तैयारी इडी अधिकारियों को फंसाने की जेल में रची जा रही थी साजिश, एक आइपीएस भी है शामिल

बीते शुक्रवार को इडी की टीम होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेट्रल जेल में करीब चार घंटे तक की थी छापेमारी बातचीत का ऑडियो विलप इडी के पास मौजूद

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। गवाह को प्रभावित करने और इडी अधिकारियों को साजिश के तहत फंसाने के मामले में इडी की पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश एंड कंपनी और आधे दर्जन से अधिक लोगों को इडी समन भेजेगी। बीते शुक्रवार को इडी की टीम होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेट्रल जेल में करीब चार घंटे तक छापेमारी की थी। इसके पूर्व इडी पीएमएलए



कोर्ट में आवेदन देकर सेट्रल जेल में जांच की अनुमति मांगी थी। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद इडी के अधिकारी सेट्रल जेल पहुंचकर जांच की गयी थी।

जानकारी के अनुसार पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश एंड कंपनी इडी के अधिकारियों को फर्जी मुकदमों में फंसाने की साजिश रच रहे थे। अवैध खनन, जमीन फर्जीवाड़ा, शराब कारोबार जैसे मामले में इडी

कौन है पुलिस का तरीय अधिकारी

इडी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि साजिश रचने के लिए रांची पुलिस में पदस्थापित एक बड़ा अधिकारी जेल में बंद कुछ लोगों से मिलने के लिए पहुंचा था और कैदियों से मुलाकात भी की थी। जेल में आरोपियों से मिलकर केस में किस तरह इडी के लोगों और कुछ विपक्षियों को फंसाया जाए, इसकी साजिश रची गई थी। जांच के दौरान इडी को मिले एक ऑडियो विलप ने इस पूरे साजिश की पोल खोल दी है। जल्द ही इडी के इस बड़ी साजिश का खुलासा करने की संभावना है। इडी ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। इससे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी अवगत करा दिया गया है।

मनी लॉड्रिंग की जांच कर रही है। इसमें कई नौकरशाह, पावर ब्रोकर फिलहाल जेल में बंद है।

बताया जाता है कि धुर्वा थाने में पूर्व के एक एसटी-एससी केस में दो नामजद व्यक्ति सहित इडी के कुछ पदाधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया गया था। फिलहाल मामले की जांच की

जा रही है। जेल में बंद मनी लॉड्रिंग के आरोपियों ने दो महिलाओं को केस दर्ज कराने के लिए तैयार किया गया था। हालांकि इडी को समय रहते इसकी भनक लग गयी थी। इस साजिश में प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल का सहयोग जेल के दूसरे कैदियों से भी मिल रही थी।

आधा दर्जन लोगों को समन भेजने की तैयारी

जेल में छापेमारी के बाद सीसीटीवी फुटेज समेत कई अन्य सामानों को जब्त किया गया है। कई नेता और नौकरशाह भी इस जद में आयेगे। इडी के पास प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और रांची पुलिस के एक अधिकारी की बातचीत का एक ऑडियो विलप भी मौजूद है। पुष्ता सूत्रों की मानें तो इडी करीब आधा दर्जन लोगों को समन भेजने की तैयारी में है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार के जेल सुपरिटेण्डेंट, जेलर, पुलिस अधिकारी समेत इस साजिश में शामिल आधा दर्जन लोगों को इडी समन भेजकर पूछताछ करेगी।

कैदियों ने की थी प्रेम प्रकाश की शिकायत

रांची। बिरसा मुंडा जेल के कैदियों ने प्रेम प्रकाश के खिलाफ जेल प्रशासन से शिकायत की थी। लेकिन जेल प्रशासन ने कथित तौर पर प्रेम प्रकाश के खिलाफ गोपनीय शिकायतों को छुपाया। इतना ही नहीं अवैध पत्थर खनन और भूमि चोटाले में आरोपी प्रेम प्रकाश के निर्देश पर जेल प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे पत्र भी नहीं भेजे।



आज से मौसम शुष्क होगा गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड



खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में पिछले 48 घंटे में बारिश हुई है। इस बदले हुए मौसम के कारण धीरे-धीरे तापमान में गिरावट आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को सुबह में कुहासा छाया रहेगा। वहीं दिन में मौसम शुष्क रहेगा। राजधानी रांची में शनिवार को पूरा दिन बादल छाये रहे। हालांकि बारिश नहीं हुई। रविवार से मौसम साफ हो जायेगा। इसके बाद ठंड बढ़ने की उम्मीद है।

शनिवार को कोल्हान और संताल परगना के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से बादल छंटेंगे और पारा गिरेगा। रविवार के बाद ठंड बढ़ेगी। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है। रांची का न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यहां के तापमान में लगभग 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गयी है। अभी तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।

मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी के प्रेस रिलीज पर लगायी रोक

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति को लेकर झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2018 की संशोधित नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली मनीष मुंडा एवं अन्य की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जेपीएससी द्वारा जारी प्रेस रिलीज पर रोक लगा दी। जेपीएससी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि झारखंड स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी से ही इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। प्रार्थी का कहना था कि नियुक्ति में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। प्रार्थी ने संशोधित नियमावली 2021 का हवाला देते हुए कहा कि यह नियमावली संविधान के आर्टिकल 16 के खिलाफ है। नियमावली के कारण कई अन्यर्थी, जिसमें प्रार्थी भी शामिल है,

कोर्ट ने निर्देश दिया है की प्रार्थी यदि विज्ञापन के सारे अर्हता को पूरा करता है और क्वालीफाई करता है तो उसकी उसे नियुक्ति के लिए कंसीडर किया जाए। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले के अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।

दरअसल, जेपीएससी ने झारखंड चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के 110 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 6/2022 निकला था। प्रार्थी ने याचिका में कहा था की विज्ञापन में झारखंड स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी को नियुक्ति में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। प्रार्थी ने संशोधित नियमावली 2021 का हवाला देते हुए कहा कि यह नियमावली संविधान के आर्टिकल 16 के खिलाफ है। नियमावली के कारण कई अन्यर्थी, जिसमें प्रार्थी भी शामिल है,

झारखंड के मूल निवासी हैं और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई यहीं से की है और चिकित्सा के रूप में यही प्रैक्टिस कर रहे हैं नियुक्ति से बाहर हो गए।

प्रार्थी विज्ञापन के मापदंड को पूरा करते हैं उसे काउंसिलिंग में भी बुलाया गया लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई। नियमावली के तहत केवल सरकारी चिकित्सकों को ही इस नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांशु वत्स ने कोर्ट को बताया कि नियमावली से अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय एवं सरकारी नौकरी वालों को अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण दिया गया है जो संविधान के विरुद्ध है। यह पद वर्ग दो का है इसमें देश के सभी नागरिक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। सरकारी चिकित्सक को अलग से 10 नंबर दिए गए हैं इसके बाद भी उन्हें प्राथमिकता देना अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण देने के समान है।

योजना के लिए ₹4 करोड़ 44 लाख की मिली स्वीकृति सिमडेगा में बनेंगे 8 नये एचएससी 9 माह में काम पूरा करने का निर्देश

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र (एचएससी) की स्थापना कर रही है। इसी कड़ी में सिमडेगा जिले के चार प्रखंड बानो, जलडेगा, सिमडेगा और टेठाईटॉंग में आठ स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाये जाएंगे। योजना के लिए 4 करोड़ 44 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

मालूम हो कि प्रति स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण पर 55 लाख 50 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से उपकेंद्र के भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही सॉफ्टवेयर और एक डीपी बोरेवल करया जाएगा। भवन के निर्माण पर चार 4147993, सॉफ्टवेयर के निर्माण पर 208664 और बोरिंग के लिए

सिमडेगा में यहां बनेगा स्वास्थ्य उपकेंद्र

पंगुर स्वास्थ्य उपकेंद्र: 55.50 लाख, करमापनी स्वास्थ्य उपकेंद्र: 55.50 लाख, कोलेमडेगा स्वास्थ्य उपकेंद्र: 55.50 लाख, ओगां स्वास्थ्य उपकेंद्र: 55.50 लाख, जलडेगा स्वास्थ्य उपकेंद्र (बानो): 55.50 लाख, काटकोना स्वास्थ्य उपकेंद्र: 55.50 लाख और कोनबेगी स्वास्थ्य उपकेंद्र: 55.50 लाख रुपये की लागत से बनेगा।

254488 रुपए खर्च होंगे।

अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश : स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार ने निर्देश दिया है कि योजना की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के 9 महीने के अंदर स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करें।

झारखंड में तीन बहुचर्चित मामलों में सीबीआई ने दिलायी सजा

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। सेट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने झारखंड के तीन बहुचर्चित मामलों में शामिल दोषियों को सजा दिलाई है। इसमें बीटेक की छात्रा हत्याकांड, धनबाद जज उत्तम आनंद हत्याकांड और तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामला शामिल है।

बीटेक छात्रा के आरोपी को एक माह में दिलाई मौत की सजा : राजधानी के सदर थाना क्षेत्र स्थित बूटी बस्ती में 15 दिसंबर 2016 को रात बीटेक छात्रा की सामूहिक दुर्घटना के बाद तार से गला घोट कर हत्या कर दी गयी थी। इसके बाद चेहरे पर मोबिल छिड़ककर जला दिया गया था। इसको लेकर रांची में जगह-जगह विरोध-प्रदर्शन हुआ था और यह मामला काफी चर्चित रहा। पहले मामले की जांच झारखंड पुलिस की जांच एजेंसी

16 दिनों में सीबीआई ने 30 अभियोजन गवाहों को कोर्ट में किया पेश

सीबीआई ने इस मामले की जांच में कई तकनीकी और ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल किया। गहन जांच के बाद सीबीआई ने 13 सितंबर 2019 को आरोपी राहुल कुमार के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दावर की। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 25 अक्टूबर 2019 को आरोप तय किया। अभियोजन साक्ष्य 8 नवंबर 2019 से शुरू हुआ। करीब 16 दिनों में सीबीआई ने सभी 30 अभियोजन गवाहों को पेश किया और उनसे पूछताछ की। सीबीआई द्वारा पेश किये गये ठोस सबूतों के बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे 21 दिसंबर 2019 को मौत की सजा सुनायी।

सीआईडी कर रही थी। कई माह की जांच के बाद सीबीआई ने इसे अगले हाथ में ले लिया। सीबीआई ने 28 मार्च 2018 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। पहले सीबीआई ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न-धर्मांतरण केस में तीन दोषी करार



नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े आठ साल पुराने यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन मामले में बीते 30 सितंबर सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। इस मामले में रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुस्ताक अहमद और रंजीत की मा कोशल देवी को अदालत ने दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने तारा शाहदेव प्रकरण के मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी।



गौरतलब हो कि रंजीत कोहली और तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद रंजीत कोहली तारा शाहदेव के साथ मारपीट व यौन उत्पीड़न करता था।

धनबाद जज उत्तम आनंद हत्याकांड में आरोपी को दिलाया आजीवन कारावास

धनबाद के अतिरिक्त जज उत्तम आनंद की 28 जुलाई 2021 को मॉर्निंग वॉक से लौटने के दौरान हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मृतक जज की पत्नी कृति सिन्हा ने धनबाद थाने में हत्या

की एकआईआर दर्ज करायी थी। बाद में झारखंड हाईकोर्ट की अनुशांसा पर यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके

सहयोगी राहुल वर्मा को 28 जुलाई 2022 को दोषी ठहराया था। छह अगस्त 2022 को दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज

रजनीकांत पाठक ने दोषियों की सजा बिंदु पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था। दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।

भाजपा छत्तीसगढ़ सरकार पर लगा रही बेबुनियाद आरोप

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार पर जो आरोप भाजपा लगा रही है। इससे यह साफ पता चलता है कि चुनाव पूर्व ही भाजपा ने यह मान लिया है कि हम छत्तीसगढ़ में चुनाव हार रहे हैं। राकेश सिन्हा ने कहा है कि भाजपा जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है यह देश की जनता को पता है। कांग्रेस लोकतंत्र का निर्माणकर्ता है, लेकिन भाजपा उस लोकतंत्र की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि इंडी के जरिए भाजपा गैर



भाजपा शासित राज्यों को किस प्रकार परेशान कर रही है और कैसे बिना साक्ष्य ईडी काम कर रही है यह किसी से छिपा नहीं है।

राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा सिर्फ प्रेस कांग्रेस कर कांग्रेस के उपर आरोप लगाने वाली पार्टी बनकर रह गयी है। भाजपा को छत्तीसगढ़ में पूरी तरह चुनाव हारने का डर सता रहा है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ झारखंड में भाजपा नेता प्रेस कांग्रेस कर रहे हैं और सत्य से परे बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं, जो उनकी हताशा का परिचायक है।

स्पीड न्यूज

आठ जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल, नगद सहित आठ बाईक जब्त

सिसई। सिसई पुलिस ने आठ जुआरियों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना प्रभारी अदिव्य कुमार चौधरी के नेतृत्व में छापाकारी कर थाना क्षेत्र के लोहराडीया स्थित मड़वारी महली के थोड में खेल रहे आठ जुआरी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जुहारी में भदौली गांव निवासी राकेश पंडा, बरगांव बरटौली निवासी नंदलाल महतो उर्फ लालु ,छरदा रोड निवासी शम्भू साहु, भरनो थाना क्षेत्र के महादेव चेगरी निवासी अशोक महतो, लवागाई चेगरी निवासी राजेश साहु, छरदा गांव निवासी मोहन कुमार, कोलेज रोड निवासी अक्षय कुमार साहु का नाम शामिल है। पुलिस ने जुआ खेल रहे स्थल से 7500 रूपया नगद, तास की गड़डी बरामद किया। पकड़े गए सभी जुआरी के पैकेट से 24 हजार रूपया बरामद किया है। साथ में 8 मोटरसाइकिल व मोबाइल बरामद किया है।

सड़क दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल

सेन्हा-लोहरदगा। सेन्हा थाना क्षेत्र के बक्सीडीपा शिव मंदिर के समीप ट्रैक्टर के चपेट में आने से एक युवक घायल हो गया। जिसे स्थानीय ग्रामीणों के पहल से एवं पुलिस के मदद से घायल को अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। विदित हो कि सड़क दुर्घटना में पल्लर मोटरसाइकिल चालक को ट्रैक्टर चालक अपने चपेट में लेते हुए घटना को अंजाम दे घटना स्थल से फरार हो गया। वहीं घायल युवक की पहचान बिशुनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निरासी करवा निवासी रामनन्दन उरौव के पुत्र अरुण उरौव के रूप में किया गया है। जो अपने मोटरसाइकिल जे एच 01 डी एम 9316 से अपने परिवार के साथ लोहरदगा से घर लौट रहा था। उसी दौरान बक्सीडीपा शिव मंदिर के समीप अज्ञात ट्रैक्टर चालक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारते हुए घटना स्थल से फरार हो गया। सड़क दुर्घटना में युवक अरुण उरौव के पैर में गम्भीर चोटें आई है। घटना की सूचना सेन्हा थाना प्रभारी को मिलते ही उनके निर्देश पर गस्ती दल घटना स्थल पहुंच घायल अरुण उरौव को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराते हुए अग्रतर कारवाई में पुलिस जुट गई।

चांदगो गांव में असहाय वृद्ध के बीच किया गया कंबल का वितरण

गुमला। चैनपुर प्रखण्ड के सुदूर क्षेत्र में वनवासी कल्याण केन्द्र द्वारा संचालित एकल विद्यालय ग्राम चांदगो में एक कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंद लोगों को टंड से बचने के उद्देश्य से फ्रीश चन्द मेमोरियल वैरिटेबल ट्रस्ट के कार्य दिल्ली के सौजन्य से प्राप्त कंबल का वितरण किया गया। मौके पर चान्दगो, पकनी, सहित अगल बगल गावों के मुण्डा, खड़िया, बिरहोर, कोरवा, रौतिया आदि जनजाति समाज के बुजुर्ग, विधवा एवं असहाय जरूरत मंद 50 (पचास) लोगों को कंबल प्रदान किया गया। मौके पर वनवासी कल्याण केन्द्र के प्रान्त एकल विद्यालय योजना प्रमुख श्री कामेश्वर साहु एवं एकल विद्यालय योजना प्रांत टोली सदस्य श्री जीतवाहन प्रजापति, गुमला जिला संगठन मंत्री खेड़ नारायण जी ने वनवासी कल्याण केन्द्र के कार्य एवं उद्देश्य इत्यादि के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दियो। इससे पहले ग्राम प्रमुख श्री सुरजन मुण्डा के निरुत्व में भगवान बिरसा मुण्डा, पवन पुत्र हनुमान जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं प्रार्थना कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया।

युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

पुलिस मामले की छानबीन में जुटी चैनपुर। चैनपुर थाना क्षेत्र के बेंदोरा जोगिया टोली में 20 वर्षीय युवक सुकेश तिकी पिता स्वर्गीय दमेनु तिकी ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद ग्रामीणों की जानकारी पर चैनपुर पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरु की। घटना के संबंध में मृतक के भाई लिबिन तिकी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिता की मृत्यु हो चुकी है। घर में वह अपनी मां के साथ रहता है। उसका भाई लगभग एक साल से मानसिक रूप से बीमार था। इसी क्रम में वह आज सुबह बिना किसी को बताए घर में पीछे बारी में जाकर पेड़ के सहारे रस्सी बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद ग्रामीणों की नजर पड़ने पर चैनपुर थाना को सूचित किया गया इधर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया है।

चेम्बर व जेएसएलपीएस के संयुक्त बैठक में रागी

उत्तरवट को आमजनों तक पहुंचाने पर चर्चा

गुमला। चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी व जेएसएनपीएस के पदाधिकारीयों की बैठक शनिवार को जशपुर रोड स्थित चेंबर कार्यालय में हुई। बैठक में जेएसएनपीएस के द्वारा गुमला में रागी (मडुवा) से बने उत्पाद को बाजार को पहचान दिलाने के संबंध में चर्चा की गई। गुमला जिला प्रशासन के पहल पर जेएसएलपीएस के बैनर तले रागी मडुवा किसानों से खरीद कर उससे अर्कों प्रकार का उत्पादन बनाया जा रहा है और उसे बाजार के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचा जा रहा है। इसी क्रम को गति देने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में जेएसएलपीएस के तरफ से अभिषेक सर, अजय व राहुल शर्मा उपस्थित थे। वहीं पर चेंबर के तरफ से चेंबर उपाध्यक्ष अभिजीत जयसवाल, सचिव बबलू वर्मा, पीआरओ प्रणय साहु और कार्यकारिणी के मोहम्मद इमत्याज व संजीव मालानी उपस्थित थे। सचिव बबलू वर्मा ने जिला प्रशासन के इस पहल की प्रशंसा की। वहीं उपाध्यक्ष अभिजीत जयसवाल ने बताया कि अभी के परिवेश में रागी मड़वा अमृत से कम नहीं है। इसका सेवन शरीर व स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। अज्ञान डॉक्टर भी स्वस्थ रहने के लिए रागी का सेवन करने की सलाह देते हैं। जिला प्रशासन की अच्छी पहल है।

बालिका शिक्षा व्यक्तिव विकास वर्ग कार्यक्रम का हुआ आयोजन

कैरो। प्रखंड के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बालिका शिक्षा व्यक्तिव विकास वर्ग कार्यक्रम का आयोजन वर्त प्रमुख रीता यादव के अध्यक्षता में हुई। जिसकी मुख्य अतिथि मातृ भारती कैरो के सचिव सीता देवी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के कक्षा पंथम से द्वापम तक बहनों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहनों के समर्पण विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास के साथ नारी के सार्तो गुणों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में बालिका शिक्षा के प्रमुख आचार्य रीता यादव, रूपा देवी, शांति नाग उपस्थित थे।

अवैध खनन रोकने के लिए सीसीटीवी लगाकर करें निगरानी : उपायुक्त

एनसीओआरडी समिति, कारा, खनन, सड़क सुरक्षा व चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित संयुक्त समीक्षा बैठक संपन्न

खबर मन्त्र संवाददाता

गुमला। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में शनिवार को एनसीओआरडी समिति, कारा, सड़क सुरक्षा एवं खनन विभाग की संयुक्त समीक्षात्मक बैठक की। उपायुक्त ने सभी विभागों व समिति अंतर्गत किए गए कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। एनसीओआरडी समिति की समीक्षात्मक बैठक के दौरान उपायुक्त ने अवैध रूप से नशीले पदार्थों की विक्री पर रोक लगाने एवं औचक जांच करते रहने का निर्देश दिया। वहीं कारा अंतर्गत व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कारा अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कारा अंतर्गत बन रहे अस्पताल के लंबित कार्यों को अतिबलव पूर्ण करते हुए अस्पताल का संचालन प्रारंभ करने को कहा। उन्होंने कारा की सुरक्षा के दृष्टिकोण से संबंधित अधिकारियों को नियमित औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कारा अंतर्गत लगे हाई मास्ट लाइट, पानी, शौचालय



बैठक में निर्देश देते उपायुक्त

आदि से संबंधित भी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। खनन विभाग अंतर्गत उपायुक्त ने अवैध खनन की रोकथाम हेतु खनन क्षेत्र के आस पास सीसीटीवी कैमरा लगाने अथवा उस क्षेत्र में पड़ने वाले सरकारी भवनों को चिन्हित करते हुए वहां सीसीटीवी कैमरा लगाने हुए अवैध खनन पर नजर रखने हेतु निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को खनन क्षेत्रों में जाकर औचक निरीक्षण भी करते रहने को कहा। सड़क सुरक्षा से संबंधित समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने खासकर ब्लाइंड स्पॉट अर्थात अधिक दुर्घटना वाले क्षेत्रों की पीपीटी के माध्यम से समीक्षा की। उपायुक्त ने एक एक कर सभी ब्लाइंड एरिया की

समीक्षा करते हुए सड़क दुर्घटना के पीछे के कारणों को समझा। जिसमें मुख्यतः सड़क दुर्घटना में ड्रंक एण्ड ड्राइव तथा बिना हेल्मेट के ड्राइव करने वाले व्यक्तियों की दुर्घटना अधिकतर देखने को मिली। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन न करने से होने वाले सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उपायुक्त ने लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। आगामी नवंबर से फरवरी माह के बीच शोम के समय कोहसा अधिक होने के कारण भी सड़क दुर्घटनाओं की संभावी स्थिति को देखते हुए उपायुक्त ने जिले वासियों से सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने एवं सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन

उपायुक्त ने किया मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जागरूकता रथ को रवाना

गुमला। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के द्वारा शनिवार को फोटो मतदाता सूची का विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत अर्हता तिथि मानते हुए सभी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को मतदाता सूची में नाम निबंधन हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया गया। जागरूकता रथ के द्वारा जिले के सभी प्रखण्डों में भ्रमण कर मतदाता को जागरूक किया जायेगा। मौके पर विकास आयुक्त हेमंत सती, उप निर्वाचन पदाधिकारी गुमला, अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला एवं निर्वाचन कार्यालय के कर्मी उपस्थित थे। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग झारखण्ड रांची द्वारा विशेष कैम्प की निर्धारित तिथि 04 एवं 05 नवंबर 2023 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्ता के आदेशानुसार 67 सिसई (अ0ज0ज0) के 332, 68-गुमला (अ0ज0ज0) के 313 एवं 69- विशुनपुर (अ0ज0ज0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 349 कुल 994 मतदान केन्द्र विशेष कैम्प का आयोजित किया गया है। विशेष कैम्प का औचक निरीक्षण जिला स्तर से प्रतिनिधित्व वरीय पदाधिकारियों के द्वारा की गई और दिनांक 05 नवंबर को भी किया जाएगा।

करने की अपील की। इस दौरान उपायुक्त ने ब्लाइंड क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक कार्यों जैसे गोलचक्कर का निर्माण करना, स्ट्रीट लाइट, स्पीड लिमिट बोर्ड लगाना आदि कार्यों को अतिबलव पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने हेल्मेट चेकिंग को भी बढ़ाने की बात कही। बैठक के दौरान

उपायुक्त ने होम गार्ड नियुक्ति के संबंध में भी चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिया। उपायुक्त ने होम गार्ड नियुक्ति की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से करने को कहा। उन्होंने फिटनेस एवं दौड़ टेस्ट के लिए डेट निर्धारित करने का निर्देश दिया। दौड़ एवं फिटनेस टेस्ट के लिए अलबर्ट एक्का स्टैडियम को प्रथम

विकल्प के रूप में चुना गया। न बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त ,एसडीओ गुमला सदर,एसडीओ बसिया, परियोजना निदेशक वच्छअ, उप पुलिस अधीक्षक,जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी,कारा अधीक्षक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।

10 लाख लेवी मांगने का आरोपी टीपीसी नक्सली गिरफ्तार

खबर मंत्र संवाददाता

लोहरदगा। लोहरदगा पुलिस ने ठेकेदार से 10 लाख लेवी मांगने के मामले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी के नक्सली कुलेश्वर कुमार यादव उर्फ डिटोल यादव को पलामू से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शनिवार को एसपी हारिश् बिन जमां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पेशरार थाना क्षेत्र में हाई लेवल ब्रिज निर्माण कर रहे प्राइवेट कंपनी राइट वे कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के संवेदक से दस लाख रूपए की लेवी फोन के जरिए मांगी गई थी। यह लेवी प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी के जोनल कमांडर प्रभात जी और विकास जी के कहने पर मांगी गई थी। वहीं आवेदन मिलते ही पुलिस ने करवाई की है लोहरदगा एसपी के निर्देश पर पेशरार



गिरफ्तार नक्सली के साथ एसपी

थाना में मामला दर्ज कर कारवाई करते हुए पेशरार थाना प्रभारी अख्तर अली के नेतृत्व में टीम का गठन कर आरोपी नक्सली का मोबाइल ट्रेस कर पलामू से गिरफ्तार की गई। टीपीसी नक्सली कुलेश्वर कुमार यादव उर्फ डिटोल यादव संवेदकों से लेवी मांगने का कार्य को

अंजाम देता था। आरोपी टीपीसी नक्सली कुलेश्वर कुमार यादव उर्फ डिटोल यादव को लोहरदगा पुलिस ने पलामू जिला के बिदरा पिपरटांड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही लेवी मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और सीम को भी जब्त किया गया।

सॉलिटैयर एजुकेशन एकेडमी ने रन फॉर यूनिटी दौड़ का किया आयोजन



थाना परिसर से दौड़ आरंभ करते स्कुली बच्चे

खबर मन्त्र संवाददाता

घाघरा। सॉलिटैयर एजुकेशनल एकेडमी मकरा घाघरा के बच्चों के द्वारा शनिवार को रन फॉर यूनिटी दौड़ कार्यक्रम का आयोजन घाघरा थाना परिसर से किया गया। इस क्रम में थाना के एसआई निर्मल महतो ने फ्रीता काटकर व मसाल जलाकर दौड़ को हरी झंडी दिखाई। दौड़ घाघरा थाना परिसर से प्रारंभ होकर चांदनी चौक तक पहुंची। इसके बाद सॉलिटैयर एजुकेशनल एकेडमी पहुंच कार्यक्रम का समापन हुआ। इस क्रम में एसआई निर्मल महतो ने कहा कि रन फॉर यूनिटी दौड़ बच्चों द्वारा एकता दिवस के

निमित्त किया गया वह बेहतर प्रयास है। बच्चे सशक्त समूह खुद को बनाएं और देश में अपना परचम लहराये। वहीं विद्यालय के प्राचार्य चंद्रकांत पाठक ने बताया कि एकता दिवस के अवसर पर एक नवंबर को विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता, दो नवम्बर को पेंटिंग प्रतियोगिता व तीन नवंबर को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसके विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया और एकता दिवस के निमित्त आयोजन का समापन हुआ। साथ ही प्रम के उपाचार्य शरद पांडे सहित के शिक्षक शिक्षिका छात्र-छात्र उपस्थित थे।

खटवा नदी के छठ घाट स्थित जीएम लैंड पर दबंगों का कब्जा

खबर मन्त्र संवाददाता

गुमला। गुमला के चंदाली खटवा नदी के छठ घाट स्थित गैर मजुरुआ जमीन पर दबंग एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण किया जा रहा है। जिससे छठ व्रतियों को परेशानियों के साथ साथ छठ मेला भी प्रभावित होने की आशंका लोग जता रहे हैं। जिसे लेकर चंदाली, टोटो, लोरो, सोसो, भलदम चट्टी एवं गुमला शहर के दुंदरिया, शिव नगर , कार्तिक नगर के कई ग्रामीण जनता ने उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से मिलकर उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की गुहार लगायी तथा उपायुक्त ने इस मामले पर जांच एवं कारवाई के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया। ग्रामीणों का कहना है कि विगत कई वर्षों से खटवा नदी स्थित छठ घाट



गैर मजुरुआ जमीन पर हुए अतिक्रमण से आक्रोशित ग्रामीण

पर अगल बगल के कई गांवों के लोग गाजे बाजे के साथ छठ महापर्व करने के लिए जुटते हैं और वहां पर मेला लगता है। जिसकी सुरक्षा के लिए पुलिस टीम भी मौजूद रहती है। लेकिन इस वर्ष असामाजिक तत्वों के कारण शांति भंग हो सकता है। जिसे लेकर प्रशासन से समय रहते गुहार लगाया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। ग्रामीणों का कहना है कि यह गैर मजुरुआ जमीन खाता नं 84,

प्लाट नं 188, रकबा 1.13 एकड़ जमीन जमीनदार बड़ाईक देवनंदन सिंह का है। जिसे आम लोगों के उपयोग के लिए छोड़ा गया है। जिसे दबंग और असामाजिक तत्वों के लोग कब्जा करना चाहते हैं। उपायुक्त को आवेदन देने वाले में धरमु गोप, कृष्णदेव सिंह, भोला दास, राकेश सिंह, मुकेश सिंह, राज कुमार सिंह, सौताराम भगत, कार्तिक मुंडा, सरस्वती देवी सहित लगभग चालीस ग्रामीणों का

राज्य स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर डीसी ने की बैठक, कई अधिकारियों को दी गई जिम्मेवारी

खबर मंत्र संवाददाता

लोहरदगा। उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर की तैयारी को लेकर बैठक की गई। 15 नवंबर 2023 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिला/ प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। जिला स्तर पर विकास मेला सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसे लेकर डीसी द्वारा सभी कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए सभी को जिम्मेवारी दी गई साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। जिसमें सबसे पहले 15 नवंबर को 9:30 बजे पूर्वान्ह से 10.30 बजे पूर्वान्ह तक भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के



बैठक में मौजूद अधिकारी

प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए प्रतिमाओं की साफ सफाई कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद लोहरदगा द्वारा किया जाएगा। 12:30 बजे अपराह्न से समाहरणालय परिसर मैदान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभुकों को लाभान्वित करने परिसंपर्क वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

इस कार्यक्रम का समन्वय अनुमंडल पदाधिकारी लोहरदगा द्वारा किया जाएगा कार्यक्रम स्थल पर अन्य व्यवस्थाओं के प्रभार में पदाधिकारी रहेंगे। जिला योजना पदाधिकारी विभिन्न पदाधिकारियों से समन्वय करते हुए विकास योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए विकास मेला की आयोजन हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारी से संबंधित विभागीय स्टॉल की स्थापना की प्रभार में रहेंगे। विभिन्न लाभुकों को

परिसंपर्क वितरण, प्रमाण पत्र वितरण, स्वीकृति पत्र के वितरण, पी.एम.ए.वाई. (आ) के लाभुकों को गुहप्रवेश ,जे.एस.ए.पी.एस के महिलाओं को लाभान्वित करना एवं अन्य योजनाओं से लाभुकों को लाभान्वित करने हेतु जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सुधीर मुर्म, परियोजना पदाधिकारी, मनरेगा, कृष्ण कुमार गुप्ता, जिला समन्वयक, पी.एम.ए.वाई.ए.व.हेल्मट बजाज, पी.पी.आई.ए.फेलेो रहेंगे। वे संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्था ससमय सुनिश्चित करेंगे जिला जनसंपर्क पदाधिकारी लोहरदगा उक्त अवसर पर माइक की व्यवस्था, एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था एवं अन्य विभागीय व्यवस्था प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

आपकी योजना- आपकी सरकार आपके द्वा्र कार्यक्रम 15 नवंबर से

लोहरदगा।

उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आपकी योजना- आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक की गई। बैठक में निर्देश दिया गया कि सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। ऑन स्पॉट समाधान होने वाले समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जिसमें खुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना , राजस्व से संबंधित कार्य किये जायेंगे। आयुष्मान कार्ड के छूटे सभी लाभुकों को चिन्हितकरण 10 नवंबर तक करने का निर्देश दिया गया। शिबिर में सामुदायिक वन पट्टा और व्यक्तिगत वन पट्टा के लिए सम्बंधित ऋह्र द्वारा आवेदन प्राप्त करना,सर्वजन पेंशन योजना,सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना,किसान क्रेडिट कार्ड योजना, आधार कार्ड ,मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुक होंगे। श्रमाधान- प्रवासी श्रमिकों को पोर्टल पर शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन हो। साइकिल की राशि का अड्ड, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच आई डी कॉर्ड वितरण,धोती साड़ी लुंगी वितरण ,कंबल वितरण,ऑन द स्पॉट निष्पादित आवेदनों का निष्पादन करते ही पोर्टल पर अपलोड किए जायेंगे। ऑन - द- स्पॉट्स विकास आधार/राशन कार्ड में संशोधन किया जाना है। बैठक में उक्त विवरण आगुत कृष्ण जय ज्योति सामंता, जिला परिवहन पदाधिकारी,अनुमंडल पदाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी,प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे



स्पीड न्यूज

डीजल चोरी के आरोप में दो व्यक्ति गोला जेल गेला। गोला पुलिस ने डीजल चोरी कर बेचनेवाले ऑपरेटर व खरीदने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। डीजल चोरी के मामले में किस्कू कंस्ट्रक्शन के मालिक दीपक किस्कू ने गोला थाना में एक आवेदन दिया है। जिसमें कहा कि भेरे ही गोला रेलवे साइडिंग में काम करनेवाला पेलेोडर ऑपरेटर गिदी ए थाना क्षेत्र के खपिया निवासी चुकेंद्र कुमार महतो पिता प्रयाग महतो पेलेोडर से 60 लीटर डीजल निकालकर मांडू थाना क्षेत्र के हरहद व वर्तमान रजर्पा थाना क्षेत्र के बागलोग निवासी बालेश्वर महतो पिता स्व मन्हाय महतो के पास बेच दिया। दिये आवेदन के अनुसार गोला पुलिस ने छापेमारी कर डीजल बेचने वाले ऑपरेटर चुकेंद्र व खरीदने वाले बालेश्वर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही डीजल को भी बरामद कर लिया गया। हालांकि पुलिस के पुछताछ के दौरान आरोपियों ने भी डीजल चोरी करने व खरीदने की बात स्वीकार किया।

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने किया कई मतदान बूथों का निरीक्षण

रामगढ़। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देशानुसार उप निर्वाचन पदाधिकारी रामगढ़ रविंद्र कुमार गुप्ता ने शनिवार को मतदाता सूची विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के नियमित चल रहे स्पेशल कैंप के दौरान रामगढ़ शहर के कई बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत प्राप्त आवेदनों का जायजा लिया एवं लंबित आवेदनों को समय निर्धारित करने का निर्देश संबंधित बूथ के बीएलओ को दिया। साथ ही उन्होंने मतदाता सूची विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण के विभिन्न प्रपत्रों के निष्पादन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। वहीं उन्होंने होम टू रोल अभियान को वृहद रूप से समय पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। मौके पर सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सतेंद्र नारायण पासवान सहित अन्य उपस्थित थे।

कुंटू बाबू से मिला फुटपाथ दुकानदार संघ का प्रतिनिधिमंडल

रामगढ़। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सह सांसद प्रतिनिधि रणजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू से शनिवार को उनके आवासीय कार्यालय में पहुंचकर रामगढ़ छवनी परिषद फुटपाथ दुकानदार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। उक्त बातों की जानकारी देते हुए भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी सत्यजीत चौधरी ने बताया की समाजसेवी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे दुकानदारों ने कुंटू बाबू को पुष्पगुच्छ देकर दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। साथ ही फुटपाथ पर व्यवसाय करने में आने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों से भी अवगत करवाया। इस पर कुंटू बाबू ने सकारात्मक आश्वासन देकर सभी दुकानदारों के साथ हमेशा की तरह आगे भी सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर खन्नुलाल सोनकर, नंद किशोर सोनकर, प्रेम मेहता, हामिद हुसैन, पप्पू, महेश, प्रमोद, गंगा साव आदि मौजूद थे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन

बड़कागांव। एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना के द्वारा ढेंगा पुनर्वास कॉलोनी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना विभाग के महाप्रबंधक पंकज ध्यानी ने दीप प्रज्वलित कर किया गया। महाप्रबंधक ने दीप प्रज्वलन स्थानीय गांव से आए बुजुर्गों के साथ मिलकर की। इस अवसर पर श्री ध्यानी ने कहा कि यह शिविर परियोजना के प्रभावित ग्रामीणों एवं प्रखंड वासियों का बेहतर सेवा प्रदान के लिए आयोजित की गई है। मेगा शिविर के अलावा परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन भी कैंप लगाकर लोगों को इलाज किया जाता है ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। शिविर में लगभग 600 मरीजों का इलाज एवं आवश्यकता अनुसार दवा का वितरण किया गया। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन, ईसीटी जैसे कई जांच भी की गई। शिविर में सीएमओ डॉक्टर कबीर प्रधान, डॉक्टर सुकुमार रेड्डी, डॉक्टर आनंद प्रकाश, डॉ जूही चावला, डॉ हिरालाल राम, डॉ रंजन, डॉक्टर एमडी मलिक, डॉक्टर मर्यक प्रताप सिंह, डॉ संजय कुमार सिंह, डॉ जयेश इत्यादि द्वारा जांच की गई। जबकि मेगा शिविर का सुचारू रूप से संचालन के लिए उप प्रबंधक संजीत कुमार सेनापति, मंजुनाथ, राजकिशोर महतो, वरिष्ठ प्रबंधक कमलाराम रजक, एग्जीक्यूटिव रजनीश कुमार, ऋचा नंदा, सिद्धि कुमारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

उपायुक्त ने बंद पड़े खदानों को चिन्हित कर लोगों को मत्स्य पालन से जोड़ने का दिया निर्देश

खबर मन्त्र संवाददाता

रामगढ़। कोयला प्रधान होने के कारण रामगढ़ जिले का बड़ा क्षेत्र खनन कार्य से जुड़ा है। खनन कार्यों के दौरान कई बड़े-बड़े गाड़ों का निर्माण होता है जिनकी लंबाई औसतन 12.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल के आसपास होती है। इन्हें में एक है मांडू प्रखंड अंतर्गत आरा ग्राम में अर्वास्थित माइनिंग कोलपिट। मांडू प्रखंड अंतर्गत आरा ग्राम के निवासी शशिकांत महतो द्वारा बंद पड़े माइनिंग कोलपिट में मत्स्य पालन करने की पहल की गई जिसके उपरांत उन्होंने स्थानीय नवयुवकों को भी इसके प्रति जानकारी देकर



उन्हें कार्यों से जोड़ा। जिला प्रशासन के सहयोग से 200 किलोग्राम मछली की अंगुलिकाएं संचयन करने के उपरांत साल भर में ही मछलियां 800 ग्राम से 1.5 किलोग्राम तक निकलने लगीं और दूसरे साल तो इनका आकार 2 से 3 किलो तक बढ़ने लगा।

की मेहनत और परिश्रम को देखकर जिला प्रशासन ने इन्हें इंटेसिव फिश फार्मिंग हेतु 51 केज मत्स्य पालन के लिए केज संरचना बनाकर नई सौगात दी अब इनके द्वारा केज मत्स्य पालन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इन केजों में लगभग 120 से 180 टन मछलियां वर्तमान में तैयार हैं एवं केज के अलावे खदान से एक वर्ष में लगभग 5 टन मछलियों का शिकार माही भी करते हैं जिसे देखकर हर बड़े स्तर पर लोग मत्स्य पालन कर उद्यमी बनने की ओर अग्रसर हैं। आधुनिक मत्स्य की केज मत्स्य पालन एक अधिक लाभ देने वाली तकनीक है परंतु इस

सांसद के समक्ष ग्रामीणों ने उठाया रेलवे साइडिंग का मुद्दा

वंदे भारत, इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव का किया मांग

खबर मन्त्र संवाददाता

कुजू। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा यूथ रिक्रिएशन क्लब, कुजू में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से सांसद जयंत सिन्हा शामिल हुए। संवाद कार्यक्रम में शामिल ग्रामीणों ने सांसद से कुजू रेलवे साइडिंग में बंद रहे प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कुजू रेलवे स्टेशन पर गिरिडीह रॉंची इंटरसिटी और पटना रॉंची वंदे



कार्यक्रम में शामिल लोग

भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग की। दौरान भ्रष्टाचार और अत्याचार सहित पेयजल नल जल समस्या का भी मुद्दे

को भी ग्रामीणों ने सांसद के समक्ष रखा। जिस पर सांसद ने सभी समस्याओं सहित रेलवे की समस्या पर डीआरएम से

बात कर निराकरण करने का आश्वासन दिया। साथ ही कुजू चौक से लेकर नया मोड़ रोड तक रेलवे स्टेशन होते हुए सड़क मार्ग का सुंदरीकरण कराने का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन मांडू प्रखंड उपाध्यक्ष रतन प्रसाद साहू ने किया। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण मेहता, साहू ने किया। मौके पर भाजपा

अखिलेश प्रसाद, दिनेश्वर प्रसाद, विजय पासवान, बसंत प्रसाद साहू, अखिलेश कुमार, महेंद्र प्रसाद, तोकेश सिंह, रवि साहू, छोटन सिंह, उमेश प्रसाद, रतन प्रसाद, सन्तोष मेहता, श्रवण सिंह, राजू कुशवाहा, अशोक सिन्हा, अशोक कुमार, शंभूलाल ठाकुर, डिम्पल प्रजापति, संजय प्रसाद, जयकुमार ओझा, प्रकाश प्रसाद, रवि साहू, दशरथ प्रसाद केशरी, नरेश गुप्ता आदि शामिल थे।

जरूरतमंदों का हर संभव सहयोग करती रहूंगी : अंबा

खबर मन्त्र संवाददाता

भुरकुंडा (रामगढ़)। लपंगा निवासी सुरेश ठाकुर के पुत्र नितिन कुमार ठाकुर के बेहतर इलाज के लिए 50 हजार की सरकारी मदद बड़कागांव विधायक सह सदस्य सरकारी आश्वासन समिति एवं निवेदन समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई। मदद राशि की चेक मरीज के पिता को विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज उर्फ सुमित के द्वारा सौंपा गया। ज्ञात हो कि नितिन कुमार ठाकुर किडनी रोग से ग्रसित थे। चिकित्से बाद अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री एवं सिविल सर्जन हजारीबाग को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री राहत कोष से सहयोग करने का आग्रह किया था। विधायक के लगातार प्रयासों के बाद 50 हजार रुपये की सहयोग राशि मरीज के



पीड़ित के पिता को 50 हजार का चेक सौंपते विधायक के भाई अंकित राज

परिजनों को उपलब्ध कराई गई। मौके पर अंकित राज ने कहा विधायक अंबा प्रसाद गरीबों जरूरतमंदों की हर संभव सहयोग करती आई है जो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 हजार के सहयोग राशि का चेक देते हुए आगे भी हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया।

कैरियर काउंसलिंग का हुआ आयोजन

हाजारों विद्यार्थी हुए शामिल



रामगढ़। अरका जैन यूनिवर्सिटी जमशेदपुर द्वारा शनिवार को चित्तपुर इंटर कॉलेज, सीपी चौधरी इंटर कॉलेज एवं एस एस वी एम स्कूल रजर्पा के छात्रों के उचित मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन को लेकर कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। काउंसलिंग में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। काउंसलिंग के सदस्य हेड ऑफ एडमिशन सुमित कुमार, विश्वजित और कैरियर काउंसलर प्रशांत कुमार ने अरका जैन विश्वविद्यालय से

संचालित बीबीए, बीसीए, बी ऑप्टोमेट्री, इंजीनियरिंग, फार्मेसी अन्य कोर्सज की जानकारी काउंसलिंग में शामिल विद्यार्थियों को दी। काउंसलिंग में विद्यार्थियों को बताया गया की सही मार्गदर्शन के आधार पर विद्यार्थी अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के आयोजन के लिए स्कूल एवं कॉलेज के प्राचार्य ने अरका जैन यूनिवर्सिटी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से छात्रों को उचित मार्गदर्शन मिलता है।

कार्यालय, जिला परिषद, रॉंची (अभियंत्रण शाखा)
शुद्धि पत्र
टेन्डर रिफ्रेन्स नम्बर-DOPR/DE/Ranchi/15/2023-24
PR No. 309695
इस कार्यालय के द्वारा प्रकाशित अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- टेन्डर रिफ्रेन्स नम्बर-DOPR/DE/Ranchi/15/2023-24 G.No. 01 (Repair & Painting Work of Lobby & Rooms of 100 Bedes Hostel, South Campus.) को अपरिहार्य कारणों अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है।
जिला अभियंता
जिला परिषद रॉंची।
PR 310627 Panchayati Raj(23-24)D

उपायुक्त सह जिला दण्डीधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह

(जिला निर्वाचन शाखा)
दूरभाष संख्या 06532-250559 ईमेल election-giridih@jharkhandmail.gov.in
-: बोलेरो वाहन मासिक किराए पर रखने संबंधी निविदा :-
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, रॉंची के पत्रांक 4070 / रॉंची दिनांक 03.10.2023 के द्वारा जिला निर्वाचन शाखा, गिरिडीह में आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 एवं विधानसभा आम चुनाव 2024 से संबंधित कार्यों के प्रभावी ढंग से संपादन एवं निरीक्षण कार्य के उपयोग के लिए बोलेरो वाहन ड्राइवर सहित बाह्य स्त्रोत के आधार पर माह दिसम्बर 2024 तक रखने का आदेश निगंत है।
उक्त के आलोक में जिला निर्वाचन शाखा, गिरिडीह (पपरवाटांड स्थित समाहरणालय भवन, गिरिडीह) में बाह्य स्त्रोत के माध्यम से एक बोलेरो वाहन, ड्राइवर सहित अगले आदेश तक रखने हेतु द्विलिफाफा पद्धति के तहत निविदा आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक एजेंसी जो संलग्न निविदा शर्त के अनुरूप बोलेरो वाहन, चालक सहित उपलब्ध कार्या हेतु इच्छुक हो वे अपना निविदा जिला निर्वाचन शाखा, गिरिडीह में दिनांक 11.11.2023 के पूर्वाह्न 11.30 बजे तक जमा कर सकते हैं। निविदा उक्त तिथि को ही अपराह्न 01.00 बजे समाहरणालय समाकक्ष, गिरिडीह (पपरवाटांड स्थित समाहरणालय भवन, गिरिडीह) में खुलेली जिसमें निविदादाता / उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। निविदा से संबंधित विस्तृत शर्तें जिला के अधिकारिक वेबसाइट <https://giridih.nic.in/> पर उपलब्ध है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
सह उपायुक्त, गिरिडीह
PR 310655 Election (23-24)_D

कार्यालय नगर परिषद, रामगढ़।

(आम सूचना)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय-शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के शहरी फुटपाथ विक्रेताओं हेतु सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत घुट्टया वार्ड सं० 20 नवनिर्मित वेंडिंग जॉन का आवंटन शहरी फुटपाथ विक्रेताओं के बीच किया जाना है। इस के लिए रामगढ़ नगर परिषद द्वारा सर्वसाधारण सूची में शामिल वैसे शहरी फुटपाथ विक्रेता, जिन्हें नगर परिषद, रामगढ़ द्वारा निबंधित पथ विक्रेता का प्रमाण पत्र दिया गया है, निम्न दस्तावेजों के साथ दिनांक 03.11.2023 से 10.11.2023 तक कार्यविधि के दौरान, रामगढ़ नगर परिषद के कार्यालय के DAY-NULM कोषांग में विहित आवेदन पत्र में आवेदन समाहित कर सकते हैं। उक्त वेंडिंग जॉन में फुटपाथ पथ विक्रेताओं को "पहले आओ -पहले पाओ" के आधार पर या अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से स्थल आवंटित किया जायगा। वार्ड सं० 20 एवं 21 के वेंडिंग कार्ड प्राप्त करने वाले पथ विक्रेता को प्राथमिकता दी जायगी। किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस नहीं की जायगी तथा आपकी पात्रता के जांचोपरांत ही लॉटरी में भाग लिया जा सकता है।

व्यवसाय हेतु वेंडिंग जॉन स्थल	व्यवसाय हेतु बैठने की कुल व्यवस्था	रजिस्ट्रेशन शुल्क	मासिक शुल्क
घुट्टया नवनिर्मित वेंडिंग जॉन, रामगढ़	18	300	300

वांछित दस्तावेज:
1. नगर परिषद रामगढ़ द्वारा प्रदत्त निबंधन कार्ड
2. एक पासपोर्ट साइज फोटो, एवं
3. आधार कार्ड की छाया प्रोत्त संलग्न करें।
PR 310653 (District) 23-24 (D)
ह०/—
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, रामगढ़।

उपायुक्त, रॉंची का कार्यालय (खनन शाखा)

रॉंची जिलान्तर्गत करी अंचल के मौजा- बकसपुर एवं मौजा- लापा तथा रनिया अंचल के मौजा- टुटिकेल में जब्त बालू खनिज की आम नीलामी हेतु सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(A) के प्राधानों के अंतर्गत उपायुक्त, रॉंची के आदेश दिनांक- 02.11.2023 के आलोक में अपर समाहर्त, रॉंची की अध्यक्षता में दिनांक 16.11.2023 को पुर्वाह्न 11:00 बजे अपर समाहर्त, रॉंची के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न किया जाएगा। बालू खनिज की नीलामी में वही व्यक्ति/संस्था भाग लेने के हकदार होंगे जो निश्चित नियमों, शर्तों एवं बंधों का अनुपालन करेंगे। बालू खनिज की विवरणी, नीलामी की प्रक्रिया एवं शर्तों को www.khunti.nic.in / कार्यालय के सूचना पट्ट पर कार्यालय अर्थात् में देखा जा सकता है।
सरकारी नीलामी हेतु उपलब्ध बालू खनिज की विवरणी :-

क्रम सं०	अंचल का नाम	ग्राम पंचायत / ग्राम सभा का नाम	मौजा	नदी का नाम	बालू खनिज की मात्रा	नीलामी हेतु निर्धारित न्युनतम राशि	सुरक्षित जमा राशि निर्धारित न्युनतम राशि का 10%
0	1	2	3	4	5	6	7
1	करा	लापा	लापा	कारो	30,000.00 सी०एफ०टी०	2,25,000.00	22,500.00
2	करा	बकसपुर	बकसपुर	कारो	11,000.00 सी०एफ०टी०	82,500.00	8,250.00
3	रनिया	टुटिकेल	टुटिकेल	कोयल	4,000.00 सी०एफ०टी०	30,000.00	3,000.00

ह०/—
उपायुक्त, रॉंची।
PR.NO.310649 Mines and Geology(23-24):D

दुनिया के 76 प्रतिशत लोग मोटापे से परेशान



एक नए शोध के मुताबिक, एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया है कि विश्व की 76 प्रतिशत आबादी यानी करीब 5.5 अरब लोग मोटापे के शिकार हैं। शोधकर्ताओं ने आगाह किया है कि यह धीरे-धीरे विकराल रूप लेता जा रहा है। इसके

इसके मुख्य अध्ययनकर्ता और ऑस्ट्रेलिया के मैफ फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ फिलिप मैफटोन ने कहा, 'मोटापे के इस विकराल रूप ने उन लोगों को भी अपने आगोश में ले लिया है जो लोग व्यायाम करते हैं और यहां तक कि वे लोग भी जो

साथ ही इससे जटिल व पाचन संबंधी गंभीर बीमारियों के खिलाफ वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों में अब बदलाव करने की अपील की है। शोधकर्ताओं ने मोटापे के पीछे की एक विशिष्ट धारणा को रेखांकित किया है कि जरूरत से ज्यादा वसा होने से स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ता है। इस शोध में न्यूजीलैंड के

खेलों में काफी अच्छे हैं।' मैफटोन ने बताया, 'मोटापे की इस श्रेणी में सामान्य वजन के लोग भी शामिल हैं' जिससे जटिल बीमारियों के लिए खतरा और बढ़ गया है। यह खतरा ज्यादा मोटे लोगों के साथ-साथ उनके लिए भी है जिनको सामान्य वजन का समझा जाता है।' पिछले तीन से चार दशकों में मोटापे का यह भयावह चेहरा काफी हद तक बढ़

ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता भी शामिल हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार यह बात सामने आयी है कि अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त लोगों की संख्या में हुई वृद्धि ने इसको मोटापे की उस श्रेणी में डाल दिया जिसमें सामान्य वजन के लोग भी शामिल हैं।

गया है जिससे ज्यादातर लोग अस्वस्थ होने की कगार पर हैं। मैफटोन ने बताया कि हमलोग इन खतरनाक कारकों में हो रहे इजाफे को लेकर जागरूकता फैलाना चाहते हैं, जहां 'ओवरफैट' और 'अंडरफैट' शब्दावलियों को नये सिरे से व्याख्या की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह शब्दावली आम प्रयोगों में शामिल होगी जिससे विश्व स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार

माता-पिता के संबंधों का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर

एक अध्ययन में यह पता चला है कि एक अच्छे घर में बच्चों के बड़े होने का असर उसके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन माता-पिता से अच्छा संबंध नहीं होने से मध्य जीवन के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अमेरिका के टेक्सास स्थित बायलोर विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर शोधकर्ता मैथ्यू ए. एंडरसन ने कहा, कि माता-पिता से बच्चों के अच्छे संबंध खाने, सोने और दैनिक गतिविधि को प्रेरित करने के लिए जरूरी हो सकते हैं।

अध्ययन में पता चला है कि यदि माता-पिता से बच्चे के संबंध तनावपूर्ण या अपमानजनक हैं तो उसकी खाने पीने की आदतों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। ऐसे उचित आहार के बजाय बच्चे ज्यादा चीनी या ज्यादा तेल वाले खाने को पसंद करने लगते हैं। सोने और दूसरे रोजमर्रा की गतिविधियां भी उनकी अनियमित हो जाती हैं।

बच्चों में स्वस्थ जीवनशैली और सामाजिक, भावानात्मक विकास का होना ज्यादा लंबी आयु के लिए जरूरी है। एंडरसन कहते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर घरों में माता-पिता से बच्चों के अच्छे संबंध का असर उनके स्वास्थ्य को बढ़ाता है। बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ कम सामाजिक-आर्थिक स्तर का उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई देता।

कम शिक्षित और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले माता-पिता बच्चों को धमकी देने या जबरदस्ती आज्ञा मानने की बजाय रचनात्मक बातचीत की सहायता लेते हैं, इससे उनके रिश्तों में गर्माहट बढ़ती है। इस अध्ययन के लिए दल ने 2,746 प्रतिभागियों जिनकी उम्र 25 से 75 की रही पर शोध किया। यह अध्ययन पत्रिका 'जर्नल ऑफ हेल्थ एंड सोशल बिहेवियर' में प्रकाशित हुआ है।



जोड़ का दर्द जाड़े में बढ़ जाता है

जाड़े के मौसम में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। यह समस्या उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं या फिर जिन्हें अर्थराइटिस की शिकायत होती है। जाड़े के मौसम में कुछ ऐहतियात बरतकर आप जोड़ों के दर्द को काबू में रख सकते हैं या मुक्ति पा सकते हैं। जाड़े में हड्डियों और जोड़ों की सेहत ज्यादा जरूरी होती है अन्यथा दर्द आपको परेशान कर सकता है। पानी

जाड़े में जोड़ों की सेहत की खातिर आपको पानी खूब पानी चाहिए। पानी के सेवन से आपके शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और इससे आपके शरीर की हड्डियां और ज्वाइंट्स भी स्वस्थ रहते हैं।

■ **जूते:** आपको विटर सीजन में सही जूते पहनने चाहिए जिससे आपका पैर ठंडी हवा के संपर्क में नहीं आए। इस मौसम में हाई हील्स काफी देर तक पहनने से बचना चाहिए। इससे आपकी एड्रिंजों और जोड़ों में दर्द हो सकता है।

■ **संतुलित भोजन:** इस मौसम में आपको खाने पर ध्यान देना चाहिए। खाने में आपको संतुलित भोजन की जरूरत होती है ताकि प्रोटीन और विटामिन की शरीर में कमी नहीं हो। विटामिन डी, सी



और के की कमी आपके ज्वाइंट्स पेन को बढ़ा सकती हैं। संतरा, बंधगोभी, पालक और टमाटर का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए।

■ **खाने में कैल्शियम का ध्यान रखें:** आपको अपने जोड़ों की खातिर यह भी ध्यान रखना होगा कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं हो। कैल्शियम का शरीर में होना आपके हड्डियों और ज्वाइंट्स की सेहत के लिए जरूरी है। मखन, दूध, पालक और उन खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए जिसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में हो।

चिकित्सक किफायती और नॉन इनवेसिव उपकरण की मदद से जल्द ही मरीजों में पारसंस और विभिन्न तरह के कैंसर समेत 17 भिन्न और असंबद्ध बीमारियों के खतरों का पता लगाने में सक्षम होंगे। इन्जरायल के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा विकसित उपकरण की मदद से सांस के नमूनों से ही इन बीमारियों के खतरों का पता लगाया जा सकेगा। सांस के नमूनों पर आधारित नैदानिक तकनीक का अतीत में कई बार प्रदर्शन किया जा चुका है लेकिन अब तक इस परिकल्पना से जुड़ा कोई वैज्ञानिक

बच्चों को ठंड में इस प्रकार बचायें

बच्चों की त्वचा बेहद नाजुक और संवेदनशील होने के साथ ही वयस्कों की अपेक्षा पांच गुना ज्यादा तेजी से नमी खोती है। ऐसे में सिंदियों के दौरान बच्चों की त्वचा को रखेपन से बचाने के लिए विशेष रूप से ऐहतियात बरतने चाहिए। सिंदियों का मौसम बढ़ों के स्वास्थ्य पर इतना ज्यादा असर डालती है कि आए दिन कुछ न कुछ बीमारी हमारे शरीर को घेरे रहती है ऐसे में सोचिए बच्चों की कोमल त्वचा पर इसका कितना बुरा असर हो सकता है।

भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी मुंबई के पूर्व अध्यक्ष ने सिंदियों के दौरान बच्चों की त्वचा की देखभाल से संबंधित ये सुझाव दिए हैं।

बच्चों के खाने को सिंदियों में सीमित कर देना चाहिए। खाने से बच्चों की त्वचा से घूल, गंदगी हटने के साथ प्राकृतिक तेल और नमी भी हट जाती है, हालांकि कुछ सावधानियां बरतने पर समस्याएँ नहीं होंगी। बच्चे को ज्यादा समय तक नहलाने के

बजाय जल्द नहलाएं। विशेष अवसरों पर बबल बाथ दे सकती हैं। सिंदियों में बच्चों को गुनगुने पानी से नहलाएं।

-पीएच बैलेंस से भरपूर सौम्य साबुन से बच्चे को नहलाएं। इससे बच्चों की त्वचा में नमी बरकरार रहती है, अगर आप खारे पानी वाले क्षेत्र में रहते हैं तो फिर सिर्फ पानी से बच्चे को नहलाने से त्वचा रूखी हो सकती है।

सिंदियों में बच्चों की त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली होना जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। हीटर के इस्तेमाल से भी त्वचा रूखी हो सकती है, इसलिए बच्चों को सौम्य बेबी लोशन लगाएं।

ऊनी टोपी सहित अन्य ऊनी कपड़े बच्चों को नहीं पहनाएं क्योंकि इससे बच्चों को उलझन, खुजली, दाने पड़ जाना और एकिनमा तक होने की संभावना रहती है। ऊनी टोपी पहनने से चेहरे की त्वचा रगड़कर रूखी हो सकती है, इसलिए जितना संभव हो सिधेटिक की बजाय नैचुरल

फैब्रिक्स का चयन करें। इससे बच्चों की त्वचा खुलकर सांस लेगी और पसीना भी नहीं निकलेगा।

अपने बच्चे की त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए उन्हें औसत मात्रा में गुनगुना पानी पिलाएं। यह त्वचा को पोषित भी रखेगा।



खजूर खायें स्वस्थ रहें

जाड़े के मौसम में खजूर खाने के कई लाभ हैं। खजूर में पोषक तत्वों का भंडार होता है। खजूर में आयरन, मिनरल, कैल्शियम, अमीनो एसिड, फॉस्फोरस और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक खजूर से 23 कैलोरी मिलती है। आइए खजूर खाने के इन पांच बड़े फायदों के बारे में जानते हैं।

■ **हड्डियों की मजबूती में कारगर**
खजूर में मौजूद साल्ट हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसमें कैल्शियम, सेलेनियम, मैगनीज और कॉपर की मात्रा होती है जिनसे हड्डियों को मजबूती मिलती है।

■ **इम्यून पावर बढ़ाने में सहायक**
खजूर का सेवन आपके इम्यून पावर को बढ़ाता है। इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्रचुर मात्रा में होता है लिहाजा आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है।

■ **त्वचा के लिए फायदेमंद**
खजूर त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। खजूर खाने से चेहरा दमदमा उठता है और त्वचा पर निखार आता है।

■ **वजन बढ़ाने में कारगर**
अगर आपका वजन कम है तो खजूर का सेवन आपके लिए फायदेमंद है। इसमें शुगर, विटामिन और कई जरूरी प्रोटीन होते हैं जो वजन बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आप बहुत दुबले-पतले हैं तो रोजाना चार से पांच खजूर खाना शुरू कर दीजिए। आपको कुछ वक्त बाद परिणाम दिखने लगना।

■ **तुरंत ऊर्जा देनेवाला**
खजूर में पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज पाया जाता है। इसलिए तुरंत ताकत के लिए इसका सेवन बहुत फायदेमंद होता है। इसके सेवन के बाद आपको तुरंत ही एनर्जी मिलती है।



सांस से पता चलेगा रोग

मौसम के बदलाव में बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल

मौसम में बदलाव आते ही लोगों में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की शिकायत बढ़ने लग जाती है। फास्ट फूड इसका एक कारण हो सकता है। खाने में फैट की मात्रा अधिक इस्तेमाल होने पर अंत में वह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को ही बढ़ावा देता है। खून का गाढ़ा होना, दिल से संबंधी रोगों की शिकायत होना इसमें आम बात हो जाती है। मौसम के बदलाव के साथ ब्लड लिपिड स्तर में भी उतार-चढ़ाव हो सकता है।

मौसम के बदलाव के साथ ब्लड लिपिड स्तर में उतार-चढ़ाव हो सकता है। सिंदियों में यह बढ़ सकता है, जबकि गिंमियों में यह कम हो सकता है। यह उतार-चढ़ाव पांच एमजी तक का हो सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के मनोनीत अध्यक्ष केके अग्रवाल का कहना है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल स्तर का सीधा संबंध दिल के रोगों से है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल का स्तर जितना ज्यादा होगा, दिल के रोगों और वैसे का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। भारत में महिलाओं और पुरुषों की मौतों का सबसे बड़ा कारण दिल का दौरा है। कोलेस्ट्रॉल स्तर में 10 प्रतिशत की गिरावट से दिल के वैसे की संभावना 20 से 30 प्रतिशत तक कम हो जाती है। इसलिए हाई कोलेस्ट्रॉल की जांच, इलाज और बचाव के बारे में जागरूक होना बेहद जरूरी है।

सौरम टोटल और एचडीएल-कोलेस्ट्रॉल की जांच भूखे पेट और खाने



के बाद की जाती है। इन दोनों के माप में मामूली सा चिकित्सकीय फर्क होता है। तनाव, मामूली बीमारी और गलत पाँश्र की वजह से किसी व्यक्ति में चार से 11 प्रतिशत तक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का फर्क हो सकता है। अलग-

अलग प्रयोगशाला से भी 14 प्रतिशत तक का फर्क आ सकता है। यानि अगर किसी का सौरम कोलेस्ट्रॉल 200 एमजी आया है, तो यह 172 से 228 एमजी के बीच हो सकता है। अगर अचूक जांच की जरूरत हो, तो एक से ज्यादा बार जांच करानी चाहिए। सौरम एचडीएल-सी और ट्राइग्लिसराइड्स में इससे भी ज्यादा फर्क हो सकता है।

एक मानक सौरम लिपिड प्रोफाइल में टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल शामिल होता है। लिपिड प्रोफाइल भूखे रहने के 12 से 14 घंटे बाद करना चाहिए। इसके लिए प्लाज्मा या सौरम स्पेसिमन का प्रयोग किया जा सकता है। सौरम कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा की तुलना में तीन प्रतिशत तक कम होता है।

सेचुरेटेड फैट अस्वस्थ एलडीएल बढ़ाते हैं और ट्रांस फैट को कम करते हैं, जो एलडीएल और प्रोटेक्टिव एचडीएल को बढ़ाता है। इसलिए इसका परहेज करें। उसकी जगह पर सेहतमंद अणसैचुरेटेड फैट को मछली, नट्स और वेजीटेबल ऑयल्स में शामिल होता है, उन्हें प्रयोग में लाएं। होल ग्रेन ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स ब्लड शुगर बढ़ने से बचाते हैं और दिनभर पेट भरा रखते हैं। इनमें फाइबर होता है, जो एलडीएल का स्तर कम करता है। ज्यादा फल और सब्जियां खाएं।

एसिटीडी से परेशान इस घरेलू उपाय को आजमायें

आज के समय में अधिकांश लोग एसिडिटी या गैस की समस्या से पीड़ित रहते हैं। जब भी आपके पेट में गैस की समस्या बढ़ने लगती है फिर आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। पेट में होने वाली जलन और एसिडिक फीलिंग के कारण आप परेशान हो जाते हैं और इससे आपके रोजमर्रा के कामों पर काफी असर पड़ता है। वैसे एसिडिटी से राहत पाने के कई घरेलू उपाय हैं। इन्हीं में से एक है जल शामक मुद्रा। अगर काम के दौरान आपको एसिडिटी होती है, तो तुरंत राहत पाने के लिए इस मुद्रा को अपनाने की कोशिश करें।

■ **विधि:** पहले आराम से बैठ जाएं। आप अपनी अपनी चेयर पर बैठकर भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। अपनी छोटी उंगली को अंगूठे के नीचे दबाएं। इस तरह दोनों हाथों से करें। अपने घुटनों पर हाथ रखकर और आंखें बंद करके करीब तीन मिनट तक बैठें। अगर आप एसिडिटी से ज्यादा ही परेशान रहते हैं, तो आप दिन में कई बार इस मुद्रा को कर सकते हैं।

योग श्रेणी में ऐसा माना जाता है कि अंगूठे में अग्नि तत्व और छोटी अंगूठी में जल तत्व होते हैं। यानि छोटी उंगली को नीचे दबाने से (एसिड के मामले में) अत्यधिक पानी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसी तरह अंगूठे से अग्नि तत्व को कम करने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं इस मुद्रा से स्ट्रेस भी कम होता है। जाहिर है स्ट्रेस को एसिडिटी लेवल के साथ जोड़कर देखा जाता है। कुल मिलाकर इस मुद्रा से बहुत राहत मिलती है। इस मुद्रा को करने से दर्द से राहत मिलती है। इसके अलावा इस मुद्रा से मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव को भी कम करने में मदद मिलती है।



स्पीड न्यूज

आम्रपाली में रक्तदान शिविर का आयोजन



खबर मन्त्र संवाददाता

टंडवा (चतरा)। टंडवा में संचालित सिसीएल की आम्रपाली-चंद्रगुप्त क्षेत्र द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी उदघाटन महाप्रबंधक अमरेश कुमार सिंह एवं मौजूद जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से विधिवत फीता काट कर किया। रक्तदान महादान में सर्वप्रथम धनगड्डा मुखिया अरविन्द कुमार सिंह ने रक्तदान कर लोगों से बढ़-चढ़ कर शिविर में भाग लेने की अपील की। इस दौरान महालक्ष्मी के मैनेजर रंजीत सिन्हा एवं सूर्याशु मुखर्जी आम्रपाली चिकित्सक रमेश शर्मा अजय कुमार समेत अन्य ने ब्लड डोनेट किया। आयोजित शिविर में कुल 91 युक्ति से अधिक ब्लड का डोनेशन हुआ। यह रक्तदान सदर अस्पताल रांची द्वारा आयोजित किया गया था। जिसका इस्तेमाल शैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए किया जाएगा। जिसमें सिविल सोसायटी ने भी सहयोग किया। उक्त कार्यक्रम आम्रपाली-चंद्रगुप्त क्षेत्र के महाप्रबंधक अमरेश कुमार सिंह के सार्थक पहल पर हुआ।

सिमरिया प्रमुख बने संघ के प्रदेश संरक्षक, हर्ष



सिमरिया। प्रमुख संघ की एक बैठक राज्य स्तरीय रांची के पुराना विधानसभा परिसर में हुई बैठक कि अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार पाण्डेय ने की। बैठक में संघ के संरक्षक पद के लिए सर्वसम्मति से चयन करने का निर्णय लिया गया। जिसमें सिमरिया प्रखंड प्रमुख सह संघ के जिलाध्यक्ष रोहन साव को प्रदेश संरक्षक के पद पर मनोनित किया गया। बैठक के बाद संघ के प्रदेश पदाधिकारियों ने नव मनोनित प्रदेश संरक्षक से अपेक्षा की है कि श्री साहू के कार्यकाल में संघ सुदृढ़ और संगठन को धारदार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभायेंगे। इधर नव चयनित प्रदेश संरक्षक रोहन साव ने कहा कि संघ ने मेरे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। इस जिम्मेवारी को मैं निष्ठा और समर्पण भाव के साथ निर्वहन करूंगा। सिमरिया प्रखंड प्रमुख को प्रदेश संरक्षक बनाए जाने पर संघ के सदस्यों और पंचायत प्रतिनिधियों ने बधाई दी है। बधाई देने वालों में उपप्रमुख दामोदर गोप, मुखिया नरेश साव, जित सदन्य देवनन्दन साहू, पंसास मिथुन कुमार समाजसेवी कृष्णा साव सहित अन्दा का नाम शामिल है।

मुखिया के पिता का अकादमिक निधन गिद्धर। प्रखंड के अंतर्गत बारियातु पंचायत मुखिया डेगन गंडू के पिता बिरजू गंडू का शनिवार को सुबह आकस्मिक निधन हो गया। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता व ग्रामीण जनता शामिल हुए।

डीसी ने सिस्टम एनालिस्ट के साथ की बैठक



खबर मन्त्र संवाददाता

चतरा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त अबु इमरान की अध्यक्षता में गोपनीय कार्यालय कक्ष में मुख्य निर्वाचन कार्यालय झारखण्ड रांची के सिस्टम एनालिस्ट एवं निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को लेकर बैठक की गई। बैठक में दिनांक-01.01.2024 को अर्हता तिथि मानते हुए 27 नवम्बर 2023 से 09 दिसम्बर 2023 तक चलाये जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 अंतर्गत बिरहोर परिवारों का मतदाता सूची में पंजीकरण, न्यू गुणवत्ता फोटो एवं ब्लैक एण्ड व्हाइट व ब्लर फोटो रिप्लेस, ईआरओ नेट पर हंडी कार्य, 80 प्लस आयु वर्ग के मतदाताओं को चिन्हित कार्य, दिव्यांग मतदाता, इंपॉटेंट मतदाता, मार्किंग कार्य, फार्म 6, 7 एवं 8 प्राप्त करने से संबंधित कार्य मतदान केन्द्र पर चलाए जा रहे विशेष अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की गई।

विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण



खबर मन्त्र संवाददाता

टंडवा (चतरा)। सिमरिया विधानसभा विधायक किशुन कुमार दास ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ टंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। जहां प्रभारी सुदीप कुमार एवं सभी पदाधिकारी के साथ बैठक कर स्वास्थ्य केंद्र के सभी युटियों में समाधान हेतु दिशा निर्देश दिया। जिसे गंभीरता से लेते हुए वहां के प्रभारी ने आश्वस्त किया कि अगले बार जब भी आप सभी आएंगे स्वास्थ्य उप केंद्र में पूर्ण रूपेण परिवर्तन मिलेगी। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद तिवारी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अक्षय वट पांडे जिला महामंत्री मिथिलेश गुप्ता स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी गणेश प्रसाद साहू विकास मालाकार बबलू सोनी राजेंद्र सिंह प्रमोद सिंह जी रामचंद्र प्रसाद गुप्ता जी रुबी देवी सजु देवी सरिता देवी फूलचंद साहू महेश वर्मा विजय साहू समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी मन्मत, हरियाणा हुई रवाना

देश- दुनिया के मानचित्र पर चतरा का नाम रोशन करना मेरा लक्ष्य: मन्मत

खबर मन्त्र संवाददाता

चतरा। जिला परिषद उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी की सुपुत्री मन्मत कुमारी का चयन सीबीएसई राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। मन्मत इस चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। डी ए वी विद्यालय चतरा की छात्रा मन्मत को जीत की शुभकामनाओं के साथ हरियाणा के लिए रवाना किया गया। राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रफुल शूटिंग प्रतियोगिता में सफलता के लिए मन्मत को

शुभकामनाएं मिल रही हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन हॉलमार्क पब्लिक स्कूल पंचकुला हरियाणा में 7 नवंबर से 10 नवंबर तक आयोजित की जाएगी।

मन्मत कुमारी की यह उपलब्धि डीएवी विद्यालय,चतरा के साथ-साथ सम्पूर्ण चतरा जिला और झारखंड के लिए बहुत गर्व का क्षण है। डीएवी विद्यालय, चतरा के प्राचार्य सैयद एजाज अहमद ने मन्मत कुमारी को विदा करते हुए उनकी उज्वल भविष्य की कामना करते हुए



गोल्ड मेडल प्राप्त करके जिला का नाम किया था रोशन

राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता से पहले मन्मत ने झारखंड की राजधानी रांची के उमराव शूटिंग स्पोर्ट्स खेलगांव में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूल राष्ट्रफुल शूटिंग प्रतियोगिता में

स्वर्ण पदक प्राप्त करके चतरा जिला का नाम रोशन किया था। वहीं मन्मत कुमारी ने सीबीएसई ईस्ट जोन चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया था।

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन का शुभकामना प्रदान किया। मन्मत ने कहा कि देश-दुनिया के मानचित्र पर चतरा और झारखंड राज्य का नाम रोशन

करना मेरा लक्ष्य है। वह अपनी सफलता के लिए अपने माता-पिता और कोच समेत सभी शुभचिंको का श्रेय दिया है।

क्षेत्र का विकास करना ही मेरी पहली प्राथमिकता : भानु

विधायक भानु ने किया पथ मरम्मती कार्य का शिलान्यास

खबर मन्त्र संवाददाता

डंडई। प्रखंड के लवाही गांव में विधायक भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत लवाही कलां से पचौर तक पथ का विशेष मरम्मती कार्य का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। लगभग दो करोड़ 62 लाख रुपय की लागत से लवाहीकलां से पचौर होते हुए बालेखंड तक तीन किलोमीटर तक सड़क बनाया जाएगा। इससे पूर्व लवाही गांव पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक का जोरदार स्वागत किया।

मौके पर विधायक श्री शाही ने कहा कि सड़क विकास का आईना होता है। अगर किसी क्षेत्र में अच्छी सड़क नहीं है तो वहां का विकास अधूरा है। डंडई प्रखंड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पहले जब हम पचौर गांव में आए थे, तो सड़क की स्थिति काफी जर्जर थी। ग्रामीणों ने सड़क बनवाने की मांग की थी। हमने लोगों



शिलान्यास करते विधायक

से सड़क बनवाने का वादा किया था। आज मैं अपने वादे को पूरा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जात पात से ऊपर उठकर हम विकास की राजनीति करते हैं। क्षेत्र का विकास करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। क्षेत्र में लगातार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। जब भी हम क्षेत्र में आते हैं तो यहां की जनता के लिए कुछ सौगात जरूर लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि जिस सड़क का आज शिलान्यास हुआ है बहुत जल्द उस

आरईओ सड़क को पीडब्ल्यूडी से जोड़ने का प्रस्ताव पास कराएंगे और लवाही से पचौर होते हुए चिनियां प्रखंड को जोड़ेंगे। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अनिता गुप्ता ने हेमंत सरकार को महिला, गरीब एवं युवा विरोधी बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रवण चंद्रवंशी व संचालन भाजयुमो मंडल अध्यक्ष अलख निरंजन प्रसाद ने किया। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

असामाजिक तत्वों ने किया धार्मिक स्थल से छेड़छाड़, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

गढ़वा। जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र के बलीगढ़ में गत शुक्रवार को असामाजिक तत्वों द्वारा देवी मन्दिर में पिंड एवं त्रिशूल के साथ छेड़छाड़ किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना की जानकारी सुबह स्थानीय लोगों को हुई तो घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की लेकर गढ़वा-शाहपुर मार्ग के तिलदाग मोड पर घंटा तक मुख्य सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद गढ़वा एसडीपीओ अवध कुमार यादव एवं थाना प्रभारी केके साहू ने घटना स्थल पहुंच कर मामले की पूरी जानकारी ली। एसडीपीओ ने धार्मिक स्थलों से खिलवाड़ करने वाले आरोपियों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि घटना के 24 घंटा बीत जाने के बाद भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे धार्मिक भावना आहत हुई है। सदर थाना प्रभारी ने दल बल के साथ जाम स्थल पहुंचकर सड़क जाम किये ग्रामीणों से एक सप्ताह के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कही। इसके बाद सड़क जाम हटाया गया।

सांसद व विधायक ने किया 10 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास



शिलापट्ट का अनावरण करते सांसद व विधायक

खबर मन्त्र संवाददाता

भवनाथपुर। सिंधिताली पटनीदाम मुख पथ से लेकर बेलपहाड़ी, पंडरिया, आौरा होते हुए सिंदुरिया मुख पथ तक करीब 10 किमी तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास शनिवार को पलामू सांसद बीड़ी राम एवं क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही ने संयुक्त रूप से विधिवत पूजा अर्चना के बाद शिलापट्ट का अनावरण कर किया। उक्त सड़क का निर्माण प्रानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से कराई जायेगी। मौके पर सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि आज के दौर में भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं, वें सभी सौभाग्यशाली है। पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश के आर्थिक और सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों में नित्य

नई योजनाओं के साथ नीतियों और सिद्धांत पर कार्य हो रहा है। उन्हें हराने के लिए देश के अन्य दलों के नेताओं ने अपने कुकर्मा को छिपाने के लिए और स्वार्थीहट में गठबंधन किये हुए हैं। ऐसे गठबंधन दलों की आगामी चुनाव में मुहताजु जवाब देते हुए देश हित में भाजपा को वोट देकर केंद्र में मजबूत सरकार बनाने का संकल्प लें। कहा कि तुलसीदाम खदान को सेल सरेंडर नहीं करना चाहता था, लेकिन राज्य के झामुमो सरकार ने उक्त खदान का लिज नवीनीकरण पांच वर्ष के बदले मात्र एक वर्ष तक ही देने में आमादा था, जिस कारण सेल प्रबंधन को उक्त खदान को सरेंडर करने पर विवश होना पड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो भवनाथपुर सेल के खाली पड़े 4 हजार एकड़ जमीन में भवनाथपुर को इंस्ट्रूटवल

हब बनाया जायेगा। विवायक ने कहा कि यहां के पूर्वजो का वोट देते देते अंगूठा का निशान मिट गया था, लेकिन यहां सड़क का नामो निशान नहीं था, उसे आज केंद्र सरकार के सहयोग से इस चार पंचायत के 12 टोला में चमचामला हुआ सड़क का निर्माण कार्य का शिलान्यास कर उन्हें समर्पित करने का काम किया है। इससे पहले 14 सांसद हुए पलामू में लेकिन सांसद के पिछले सात पर बैठने के चलते वे प्रमंडल के विकास के हित में आवाज उठाने में असमर्थ साबित हुए। मौके पर सोना किशोर यादव, जिला उपाध्यक्ष उम्रेंद्र यादव, मालुता कुमारी, लक्ष्मण राम, विवायक प्रतिनिधि भानु गुप्ता, शारदा मंदेश प्रताप देव, भगत दयानंद यादव, इंद्रदेव प्रसाद यादव, मनोज पहाड़िया, सुनील सिंह आदि लोग उपस्थित थे।

विधायक भानु के खिलाफ बयान देने पर जिपस रंजनी को मिली धमकी

खबर मन्त्र संवाददाता

भवनाथपुर। भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही के विरुद्ध समाचार पत्र में बयान छपने पर भवनाथपुर जिला परिषद सदस्य रंजनी शर्मा को धमकी दिये जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में जिपस रंजनी ने थाना में आवेदन देकर पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने एवं आरोपी चमन सिंह के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। थाना में सौंपे गये आवेदन में श्रीमती शर्मा ने कहा है कि



उनके प्रयास से भवनाथपुर स्वास्थ्य केंद्र

प्राथमिकी के लिए थाना में दी आवेदन

में लगाये गये डिजिटल एक्स-रे मशीन तथा अन्य विकास योजनाओं का श्रेय विधायक भानु प्रताप शाही स्वयं ले रहे हैं। इससे संबंधित उन्होंने जिपस सदस्य कॉन्फ्रेंस कर विधायक से कुछ सवाल पूछे। इसी बात को लेकर विधायक भानु के इशारे पर भवनाथपुर निवासी मनोज सिंह के पुत्र चमन सिंह ने तीन अक्टूबर की शाम मोबाइल नंबर 7091093999 से फोन कर धमकी देते हुए कहा कि तुम भानु प्रताप शाही के खिलाफ

बयानबाजी करती हो, इसके लिए तुम्हारे साथ-साथ तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत बुरा अंजाम भुगताना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पत्र आ रहा हूँ। इस संबंध में जिपस सदस्य श्रीमती शर्मा ने प्राथमिकी के लिए भवनाथपुर थाना में आवेदन दी है। इस संबंध में पूछे जाने पर भवनाथपुर थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय ने बताया कि इससे संबंधित आवेदन उन्हें प्राप्त हुआ है। मामले की जांच कर विधिसमत् कार्रवाई की जा रही है।

एक नजर में

विधायक ने किया लेमसा पुल का शिलान्यास



खबर मन्त्र संवाददाता

सिमरिया। प्रखंड के सलगी गांव के निकट लेमसा पुल का शिलान्यास करने विधायक किशुन कुमार दास लेमसा नदी पहुंचे जहां स्थानीय ग्रामीणों ने बाजा गाजा के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायक ने शोला पट का अनावरण कर विधिवत पूजा पाठ कर शिलान्यास किया। साथ ही प्लस टू उच्च विद्यालय सलगी का किशुन कुमार दास ने कहा कि इस पुल के निर्माण के लिए क्षेत्र के लोगों ने मांग पर सौंपा था जिस पर पहल करते हुए विभाग को अनुशंसा किया और अथक प्रयास के बाद लेमसा सेतु निर्माण का कार्य

आज शुरू होने जा रहा है। इस पुल के बनने से चतरा, लातेहार और पलामू तीन जिला के लोग लाभान्वित होंगे। यातायात सुविधा के साथ साथ क्षेत्र में सम्मन्ता भी बढ़ेगी। रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जंबड़ा सलगी पथ मरम्मती का कार्य भी जल्द होगा। प्लस टू विद्यालय सलगी का नया भव्य भवन भी शीघ्र बनेगा। मौके पर जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा, नरेश सिंह, अचछेठ पांडे, शुभम सिंह, अरविंद सिंह, रामदेव सिंह भोक्ता, रमेश राम, केदार गंडु, संजय सिंह, अक्षेवट सिंह, दयानिधि सिंह, सुखदेव पासवान, रामलाल उराऊं, बृज मोहन राम, मनोरंजन सिंह, सुनिल सिंह, किशोर सिंह, सुधीर सिंह रविंद्र सिंह, परमोद सिंह, मदन सिंह, राजनाथ सिंह, गणेश सिंह, विकास कुमार साहू, आमका सिंह, लवकुश सिंह, अविनाश सिंह, संजीव सिंह, शशि सिंह नारायण सिंह,लखन साहू, विनय सोनी समेत कई लोग मौजूद थे।

डीआरडीए निदेशक ने बैठक कर की विभागों के योजनाओं में प्रगति की बिंदुवार समीक्षा



बैठक करते लोग

खबर मन्त्र संवाददाता

मझिआंव। प्रखंड के सभागार में शनिवार को डीआरडीए की निदेशक दिनेश कुमार सुरीन की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान प्रखंड सह अंचल सहित सभी विभागों के योजनाओं में प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिसमें आवास, पेंशन, शान, मनरेगा तथा ग्रामीण विकास की अन्य योजनाएं पशुधन, पेयजल, 15वें वित, बाल विकास, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण समेत अन्य सभी विभागों की समीक्षा कर संबंधित विभागों पदाधिकारियों एवं पंचायतों में प्रति नियुक्त कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही योजना का लाभ देने में कुछ अनुसुधिया है तो उसे भौतिक सत्यापन के पश्चात धरातल पर उतारने का काम करें। निदेशक ने

प्रखंड के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय से संबंधित सभी योजनाओं की प्रगति और जन कल्याणकारी विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए समय-समय पर बैठक कर बिंदु वार चर्चा करने की बात कही। साथ ही योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने की बात कही। बैठक में बीडीओ नितेश भास्कर, सीओ रामजी प्रसाद गुप्ता, रेफरल पदाधिकारी डॉ. गोविंद प्रसाद सेठ, विद्यासागर मेहता, अखिलेश कुमार, लव कुमार, नाजीर जितेंद्र सिंह, प्रेम शंकर पाठक, शिव शंकर ठाकुर, परमानंद प्रसाद, बख्तवायर कुमार, रामचंद्र प्रसाद, धीरेंद्र कुमार, वसीम अंसारी, सतीश कुमार सिंह, रशीद अंसारी, राजकुमारी सिंह, सुमित्रा देवी, प्रभादेवी आदि पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन



खबर मन्त्र संवाददाता

कोडरमा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है, शनिवार को उपायुक्त मेधा भारद्वाज की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान की बैठक हुई, जिसमें चुनाव को लेकर अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए डीसी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। बैठक में शामिल सभी सहायक निर्वाचक निबनन पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों और मतदाता सूची से सम्बंधित दिए गए कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने, जिले में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान शतप्रतिशत योग्य लोगों का नाम सूची में दर्ज करने, नाम में सुधार व अन्य युटियों को दूर करने का निर्देश दिया, सभी थाना प्रभारियों और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को

आपस में समन्वय स्थापित कर सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सभी प्रकार के मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, चुनाव कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को देने, मतदान केंद्रों का भौतिक रूप से निरीक्षण कर केंद्रों का रूठ धारा प्रतिक्रिया आदि का निर्देश दिया। वहीं एसपी अनुदीप सिंह ने सभी थानों के प्रभारियों को मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर फोंस की जरूरत संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों आदि पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने आदि का निर्देश दिया। मौके पर डीसी एसपी के अलावे एसी अनिल तिकी, एसडीओ सन्दीप कुमार मीणा, उपनिर्वाचन पदाधिकारी जगपाल सोय प्रखण्डों के सीओ, बीडीओ सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, थाना प्रभारी आदि मौजूद थे।

स्पीड न्यूज

ग्रीन फीलड एकेडमी में मनाया गया भ्रष्टाचार निरोधी पखवाड़ा



पखवाड़ा में उपस्थित लोग।
चंदवा। स्थानीय ग्रीन फीलड एकेडमी प्रांगण में शनिवार को भ्रष्टाचार पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्राचार्य उदय नायकण कपूर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश व समाज को अंदर से खोखला बना देती है। इसलिए समाज के हर वर्ग को भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुखर होकर आवाज उठाने की जरूरत है। वहीं विद्यालय के निदेशक अरविंद कुमार भ्रष्टाचार मुक्त समाज ही देश को विकसित और शक्तिशाली बना सकता है। हमसब की जवाबदेही बनती है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दें। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षकों व विद्यार्थियों को भ्रष्टाचार निरोधी शपथ भी दिलाई गई। मौके पर ज्योति कुमारी, अनुराधा कुमारी, एलेक्स कंडुलना, राहुल मिश्रा, धनंजय कुमार अमर, राजीव, मधु, लकी, सुचिता एकका समेत काफी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे।

सबजी लेकर घर जा रहे युवक के साथ मारपीट, घायल

बालुमाथ। बालुमाथ प्रखंड क्षेत्र के शेरगड़ा ग्राम में शुक्रवार को देर शाम सब्जी लेकर घर जा रहे एक युवक के साथ कुछ शराबी युवकों ने मारपीट किया। जिससे युवक गंभीर गम्भीर रूप से घायल हो गया। घटना के सम्बंध में जानकारी देते हुए राणा वशिष्ठ 16 वर्ष पिता शिवनंदन राणा ग्राम शेरगड़ा थाना बालुमाथ निवासी ने बताया कि वह शेरगड़ा बाजार से जब सब्जी लेकर मोटरसाइकिल घर जा रहा था। इसी दौरान भोला पांडे, सुभाष तुरी, चंदन तुरी, बसन्त तुरी, मंजिला तुरी सभी शेरगड़ा ग्राम निवासी ने मोटरसाइकिल रोककर उसके साथ मारपीट किया। मारपीट करने वाले सभी लोग शराब के नशे में धुत थे। घटना के बाद परिजनों के सहयोग से घायल युवक को बालुमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां डॉक्टर संजय सिद्धार्थ की देखरेख में उपचार प्रारंभिक उपचार किया गया। वहीं इस संबंध में पीड़ित ने बालुमाथ थाना में आवेदन देकर दोषियों पर कारवाई की मांग किया है।



घायल युवक।

दो मोटरसाइकिल की हुई आमने-सामने टक्कर में एक घायल रिस्स रेफर

बालुमाथ। थाना क्षेत्र के गणेशपुर ग्राम में शनिवार को दो मोटरसाइकिल की हुई आमने-सामने टक्कर में रामा उरांव 40 वर्ष पिता चैता उरांव ग्राम गणेशपुर गंभीर रूप से घायल हो गया। बालुमाथ अस्पताल के एंजुलेंस से घायल रामा उरांव को घायल अवस्था में बालुमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज हेतु रिस्स रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार रामा उरांव मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने घर गणेशपुर जा रहा था। इसी बीच गणेशपुर स्कूल के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक अज्ञात मोटरसाइकिल से टक्कर हो गया। जिसमें वह गिरकर घायल हो गया। वहीं दूसरा मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया।

जंगली हाथियों की झुंड ने लहलहाती धान के फसलों को किया बर्बाद

सरयू। नवनर्मित सरयू प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथियों के झुंड द्वारा जम कर उत्पात मचाया है। शुक्रवार के रात्रि में चौरहा गांव निवासी गणेश्वर उरांव के 3 एकड़ 75 डेसिमल खेत में लगे धान के लहलहाती फसलों को बर्बाद किया। गणेश्वर उरांव ने बताया कि इस अकाल में बहुत मेहनत करके दिन रात पानी पटा-पटा कर धान का फसल किया था। जिसे जंगली हाथियों के झुण्ड ने बर्बाद कर दिया। वहीं कामेश्वर उरांव, कामला सिंह, बासुदेव उरांव, के खेतों में लगे धान के फसलों को भी रौंद दिया है। बिनाद उरांव ने बताया कि हाथियों का एक झुण्ड हमारे घर के पास आ धमके और घर के बाहर रखे मकई को खा गया। हाथियों के द्वारा फसलों को बर्बाद करते देख ग्रामीणों ने पटाखा और लुकवारी के सहारे से हाथियों का झुंड को खदेड़ कर भाग दिया है। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले दो हाथियों ने सरयू के कोरवा टोली गांव में तीन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था और एक व्यक्ति को घायल किया था। वहीं पीड़ित परिवारों ने वन विभाग के पदाधिकारियों से नुकसान किए गए फसलों को उचित मुआवजे की मांग किया है।

मोटरसाइकिल की चपेट में आने से बच्ची घायल

बालुमाथ। चतरा एन एच 22 मुख्य पथ पर टमटम टोला के समीप शनिवार को मोटरसाइकिल की चपेट में आने से छोटी कुमारी 6 वर्ष पिता स्वर्गीय प्रदीप साहू ग्राम टमटम टोला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों के सहयोग से छोटी कुमारी को घायल अवस्था में बालुमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज हेतु रिस्स रेफर कर दिया। बताया जाता है कि छोटी कुमारी अपने दादा रामसेवक साहू के होटल में से अपने घर जाने के लिए सड़क पार कर रही थी। इसी बीच तेज रफतार मोटरसाइकिल अपनी चपेट में ले लिया।

मनिका प्रखंड में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के बयान पर किया पलटवार बीजेपी के अधूरे कार्य को पूरा कर रहे हैं : मिथिलेश पासवान

कांग्रेस के विधायक विकास कार्यों में हुए असफल साबित : छोटे राजा

खबर मन्त्र संवाददाता

मनिका। मनिका प्रखंड मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय में दिन शनिवार को युवा कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मनिका विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस अध्यक्ष मिथिलेश पासवान ने भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष छोटे राजा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण का दोबारा शिलान्यास करने के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के लोग



प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित लोग।

आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं हॉस्पिटल निर्माण का भाजपा के पूर्व विधायक हरिकृष्ण सिंह ने अपने चहते भाजपा नेता को टेंडर दिलावा था और इसका शिलान्यास भी किए थे। उन्होंने

कहा कि 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सांसद सुनील कुमार सिंह के द्वारा मंडल डैम का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था लेकिन 4 वर्ष बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। वहीं कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने

कहा कि शिलान्यास करने का मामला विभागीय है लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार वर्तमान में जनता जिसे चुनती है उसे ही काम करना होता है 2019 में जो टेंडर हुआ था वह योजना फर्लाने पर कर गया योजना वही है लेकिन इसका नया

हर घर नल जल में भारी लापरवाही को लेकर की शिकायत भुसाढ़ के ग्रामीणों ने उपायुक्त के नाम कार्यालय को सौंपा ज्ञापन

खबर मन्त्र संवाददाता

चंदवा। कामता पंचायत के ग्राम भुसाढ़ के ग्रामीणों ने शुक्रवार को उपायुक्त के नाम कार्यालय को ज्ञापन सौंपा है। जिसमें हर घर नल जल में घोर लापरवाही बरतने की शिकायत की है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम भुसाढ़ में हर घर नल जल योजना के तहत बोरिंग कर सव्त्रेकर खड़ा किया गया है, लेकिन भुसाढ़ गांव के प्रेम उरांव के घर के समीप लगे टावर के पानी टंकी में एक बूंद पानी नहीं चढ़ रहा है। नरेश उरांव के घर के सामने लगे टावर टंकी में भी पानी नहीं चढ़ रहा है, इस दो टावर के कनेक्शन धारियों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा

है। करीब एक दर्जन घरों में पानी का कनेक्शन ही नहीं दिया गया है। घरों में नल तो दिया गया है लेकिन नल का निचे की जमीन में पक्का का फर्श अबतक नहीं बन पाई है। नरेश उरांव के घर के सामने लगे टावर की सीढ़ी को रस्सी के सहारे बांधकर छोड़ दिया गया है इससे दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। कार्य की शुरूआत हुए करीब दो महिने से अधिक समय हो गया ग्राम भुसाढ़ में लेकिन अबतक भुसाढ़ की हर घर नल जल योजना की ठिकेदार का कोई अंता पता नहीं है। ज्ञापन में भुसाढ़ में हर घर नल जल योजना के टावर टंकी में भी पानी नहीं चढ़ रहा है, इस दो टावर के कनेक्शन धारियों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा है।

कुमार पन्ना, बैजनाथ ठाकुर, सीमा देवी, जतरी देवी, द्वारिका ठाकुर, पीटर एकका, सुरज देव उरांव, सुनील गंडु, दिनेश कुमार, बनारसी साव, अनिल गंडु, पुनम देवी, संजय उरांव, नंदलाल ठाकुर, प्रेम उरांव, मजरी देवी, मांती देवी, प्रकाश उरांव, बिराजो देवी, गोवर्धन उरांव, नूतन किस्पेट्टा, सुनील मिंज, सुकंती देवी, उर्मिला देवी, सुकरी देवी, दिपा देवी समेत कई लोगों के हस्ताक्षर है। इधर पंचायत समिति सदस्य अयुब खान ने कहा है कि हर घर नल जल के संवेदक बेलगाम हो गया हैं, संवेदकों का काम धरातल पर जैसे जैसे हो रहा, संवेदक का कोई अंता पता ही नहीं चलता है, घटिया काम हो रहा है।

सरस्वती विद्या मंदिर में पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

खबर मंत्र संवाददाता

बारियातू। प्रखंड मुख्यालय स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में शनिवार को विद्यालय की ओर से कक्षा तृतीय से अष्टम तक के विद्यालय में अख्यरत छात्र छात्राओं के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कक्षा तृतीय से पंचम तक राष्ट्रीय पक्षी मोर बनाओ प्रतियोगिता एवं कक्षा षष्ठ से अष्टम तक दीप बनाओ प्रतियोगिता कराया गया। इस बीच प्रधानाचार्य जितेंद्र राम ने छात्रों को संबोधित करते हुए कला के महत्व के बारे में प्रकाश डाला साथ ही बताया कि भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था। वस्तु



प्रतियोगिता में उपस्थित बच्चों व शिक्षक।

चित्रण के अभ्यास द्वारा विद्यार्थी एक अच्छा चित्रकार बन सकता है। इससे विद्यार्थी में आत्मविश्वास तथा परिपक्वता का निर्माण होता है। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है। जिससे शारीरिक और मानसिक कौशलों का विकास होता है। इसलिए समय-समय पर विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। कक्षा तृतीय में प्रथम स्थान श्रेयांशु कुमार, द्वितीय स्थान सुनीता कुमारी, तृतीय स्थान प्रिंस शारीरिक और मानसिक कौशलों का

विकास होता है। इसलिए समय-समय पर विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। कक्षा तृतीय में प्रथम स्थान श्रेयांशु कुमार, द्वितीय स्थान सुनीता कुमारी, तृतीय स्थान प्रिंस कुमार, कक्षा चतुर्थ में प्रथम स्थान परिधि

ग्रामीणों की बैठक में शामिल हुए पूर्व विधायक हरिकृष्ण सिंह



बैठक में शामिल हरिकृष्ण सिंह व ग्रामीण।

लातेहार। जिले गारू मंडल के गणेशपुर और घासीटोल पंचायत के ग्रामीणों की बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक हरिकृष्ण सिंह शामिल हुए। बैठक में ग्रामीणों ने निर्णय लिया की अगर करवाई पुल जल्द पूर्ण नहीं होती है तो हम सभी ग्रामीण चरगणबद्ध तरीके से आंदोलन करने में बाध्य होंगे। मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजधानी प्रसाद यादव, जिला महामंत्री बंशी यादव, जिला सोशल मीडिया प्रभारी पंकज यादव, गारू मंडल महामंत्री राजकुमार सिंह, लातेहार ग्रामीण मंडल महामंत्री अवधेश चंद्रवंशी, एसटी मोर्चा जिला महामंत्री संदीप उरांव, गारू मंडल युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनूप कश्यप, मनिका मंडल सोशल मीडिया प्रभारी विकास साहू, उल्फन सिंह समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

रैयत विस्थापित मोर्चा की बैठक, नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ कई बिन्दुओं पर हुई चर्चा

खबर मंत्र संवाददाता

बारियातू। प्रखंड के अमरवाडीह पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय परिसर फूलबसिया में रैयत विस्थापित मोर्चा के नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की गई। जिसका अध्यक्षता मगध परियोजना अरवीएम अध्यक्ष रामचंद्र उरांव संचालन सचिव प्रवेश पांडेय ने की। जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में रैयत विस्थापित मोर्चा के केंद्रीय सचिव गुरुदयाल साव, केंद्रीय सदस्य विजय साव द्वारा उपस्थित विस्थापित मोर्चा के नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा किये। साथ ही मगध परियोजना जेसीएमयू के अध्यक्ष राजकुमार उरांव सचिव राजेश गंडू उपाध्यक्ष बिन्दे गंडू, दीपा देवी कोलेश्वर गंडू संयुक्त सचिव त्रिवेणी गंडू, नारायण गंडू, ललिता देवी मीडिया प्रभारी सुनील गंडू सदस्य गौतम पाण्डे, दिवाकर ठाकुर, राम कुमार उरांव मोहन गंडू, खुशियाल गंडू, गंगाधर गंडू, दरगौ गंडू, साहो देवी, सरैया देवी, लालमनि मासोमत सहित दर्जनों उपस्थित लोगों से कई समस्या पर चर्चा कर सीसीएल



बैठक में उपस्थित लोग।

प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, विजली, पानी, सड़क, रोजगार, स्कूल बस, प्रदूषण सहित कई समस्याओं से सम्बंधित 5 नवम्बर रविवार को बैठक रखने की सहमति बनाई गई। जहाँ उक्त बैठक मे अधिक से अधिक संख्या मे भू-रैयत विस्थापित, ग्रामीण महिला पुर्षों को आने की अपील की गई।

स्वयं सेवकों का मानदेय तय करने व पंचायत सहायक नामकरण को लेकर सीएम से की है बात: त्रिपाटी

केएन त्रिपाटी ने आंदोलनरत स्वयं सेवकों से की मुलाकात

खबर मन्त्र संवाददाता

चंदवा। चतरा संसदीय क्षेत्र के दौर के क्रम में शनिवार की शाम पूर्व मंत्री सह कांग्रेस नेता केएन त्रिपाटी चंदवा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत पंचायत स्वयं सेवकों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा को जाना, इस दौरान स्वयं सेवकों को भरोसा देते हुए कहा कि आप सभी स्वयं सेवकों की समस्या से मैंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है साथ ही उनसे मांग की है कि पंचायत स्वयं सेवकों का नामकरण पंचायत सहायक करें व मानदेय तय की जाए। मुख्यमंत्री के द्वारा भी उचित निर्णय लिए जाने का भरोसा दिया है। क्षेत्र के विकास व समस्याओं के निराकरण में फिसलट्टी है स्थानीय सांसदः



स्वयं सेवकों से मुलाकात करते त्रिपाटी।

केएन त्रिपाटी इस दौरान उन्होंने स्थानीय सांसदों पर तीखा हमला बोलेते हुए कहा कि चतरा संसदीय क्षेत्र से अबतक जितने भी सांसद रहे हैं उन्होंने क्षेत्र की जनता को सिर्फ छलने का काम किया है। क्षेत्र के विकास में स्थानीय सांसद फिसलट्टी साबित हुए हैं यह भी कहना गलत नहीं

होगा। इन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में खनिज संपदा का प्रचुर भंडार है लेकिन यहां के लोग विकास से महरूम है व रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर है। सीएसआर फंड से भी काफी पैसा आता है ताकि खनिज क्षेत्र की प्रदूषण से बचाया जाए लेकिन पैसे का सदुपयोग ना के बराबर होता है। इस

दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के मध्यनजर जनता का मन टटोलने का भी प्रयास किया। मौके पर परमदेव सिंह कुशवाहा, सुरेश कुमार पाठक, रंजन कुमार डुवे, बबन पासवान, स्वयं सेवक राजन कुमार, अमित कुमार, मनीष कुमार, मंटू राम समेत दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे।

क्या बोले भाजयुमो जिला अध्यक्ष

वहीं भाजयुमो जिला अध्यक्ष छोटे राजा ने कहा कि सितंबर 2019 में रघुवर दास के कार्यकाल में विधायक हरिकृष्ण सिंह के द्वारा अस्पताल निर्माण का शिलान्यास किया गया था इसके बाद इसका कार्य तिर्वगति से चल रहा था 3 महीने के बाद मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह के आते ही अस्पताल का निर्माण का कार्य रोक दिया गया। महागठबंधन का सरकार होते हुए इस योजना का रिटेंडर करवाने में इन्हें 4 साल लग गए।

जाने के कारण हम लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने बालुमाथ थाना प्रभारी से मामले पर पहल करते हुए कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में कंपनी में कार्यरत सुजीत कुमार यादव, प्रकाश मिश्रा की उपस्थिति में अग्रिम फैसला होगा। जो दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा। तब से उठकर चले गए। विस्थापितों ने बताया कि कंपनी द्वारा काम से हटा दिए

पीएनएम कंपनी ने विस्थापितों को नौकरी से निकाला

खबर मन्त्र संवाददाता

बालुमाथ। बालुमाथ प्रखंड क्षेत्र में सीसीएल द्वारा संचालित तेतरियाखांड कोलियरी में ओबी एवं प्रोडक्शन का कार्य कर रही पीएनएम कंपनी ने विस्थापितो को नौकरी से हटा दिया और उनके स्थान पर नए बाहरी लोगों बहाल कर दिया। इस सम्बन्ध में विस्थापितों में बालुमाथ थाना प्रभारी को आवेदन देकर बताया है कि पीएनएम कंपनी में वे लोग ड्राइवर, सुपरवाइजर, गार्ड समेत अन्य कार्य विगत 3 वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन कंपनी द्वारा वीते 31 अक्टूबर से अचानक काम बंद कर दिया गया और बाहरी लोगों को बहाल कर दिया गया। एक तो उन लोगों को अधिक वेतन पर हस्ताक्षर करवाया जाता है और उन्हें कम वेतन का भुगतान किया जाता है। इस विषय को लेकर सीसीएल



आवेदन देने जाते विस्थापित।

के पिट ऑफिस में परियोजना पदाधिकारी एवं युनियन के पदाधिकारी एवं कंपनी के मैनेजर शंभू प्रसाद सिंह की उपस्थिति में बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि आगामी 8 नवंबर को कंपनी का मासिक विपिन होगा। जो दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा। तब से उठकर चले गए। विस्थापितों ने बताया कि कंपनी द्वारा काम से हटा दिए

जाने के कारण हम लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने बालुमाथ थाना प्रभारी से मामले पर पहल करते हुए कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में कंपनी में कार्यरत सुजीत कुमार यादव, प्रकाश मिश्रा की उपस्थिति में अग्रिम फैसला होगा। जो दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा। तब से उठकर चले गए। विस्थापितों ने बताया कि कंपनी द्वारा काम से हटा दिए

तीन लाभुकों को पांच सौ दिया गया मुर्गी चूजा

खबर मन्त्र संवाददाता



चूजा वितरण करते जिला पशुपालन पदाधिकारी।

बालुमाथ। बालुमाथ ब्लाक परिसर के पशुपालन विभाग में शनिवार को मुख्मंत्री पशुधन योजना के तहत 3 लाभुकों को 500-500 मुर्गी का चूजा का वितरण किया गया। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर देवनाथ कुमार एवं डॉ सुशीला कुमारी ने लाभुक शीतल उरांव, कांंदो उरांव एवं सुमती देवी को 50% सब्सिडी में मुर्गी का चूजा का वितरण

किया। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर देवनाथ कुमार ने कहा कि यह योजना 66 हजार की है जिसमें लाभुकों को 33 हजार रुपए ही जमा करना है और सरकार द्वारा 50% सब्सिडी दे रही है। जिससे प्रत्येक लाभुकों को 33,000 का लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि लोग चूजा लेकर मुर्गी पालन करें और स्वावलंबी बनें। इस मौके पर राजू कुमार, संजय राणा समेत लोग मौजूद थे।

एक नजर में

पशु चिकित्सा केंद्र से बॉयलर चूजा का किया गया वितरण

बारियातू। प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर स्थित पशु चिकित्सा केंद्र से शनिवार को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 2000 बॉयलर कुक्कुट चूजा पालन के लिए चार लाभुकों के बीच जिला परिषद सदस्य रमेश राम, पशु चिकित्सा पदाधिकारी सुशिला वागे ने संयुक्त रूप से वितरण किया। जिला परिषद सदस्य राम ने लाभुकों से कहा कि सरकार की यह महत्वकांक्षी योजना बहुत ही फायदेमंद है। लाभुकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर इस योजना के तहत कुक्कुट चूजा दिया जा रहा है। गाँव के लाभुक आत्मनिर्भर बने। वहीं जानकारी देते हुए पशु चिकित्सा पदाधिकारी सुशिला वागे ने कहा कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 का है। जिसके तहत कुल चार लाभुक बलराम उरांव व राजकुमार उरांव टौटी एवं सोमो देवी पति रामपति उरांव व जगमणी देवी पति रामकेवल उरांव डाढ़ा को 50 प्रतिशत अनुदान पर पांच-पांच सौ कुक्कुट चूजा, दूध-दस ड्रिंकर फिडर,लाईव व दवा का वितरण किया गया। साथ ही रख रखाव पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मौके पर टौटी उप मुखिया जितेंद्र प्रसाद, बिनेद बैटा,सत्यावर अजय कुमार, मो. शाहिद सराज सहित कई लोग उपस्थित थे।

चूजा वितरण करते जगपतिनिधि।

बरावाडीह। छट पूजा सहायतार्थ समिति बरावाडीह के द्वारा छट महापर्व के अवसर पर प्रखंड मुख्यालय के बस स्टैंड में सभी छठवर्तियों के बीच निशुल्क आम की लकड़ी का वितरण किया जायेगा। उक्त जानकारी देते हुए सहायतार्थ समिति के सदस्यों ने सभी छठवर्तियों और श्रद्धालुओं से अपील किया है कि वह समय पर उक्त स्थल पर पहुंचकर आम की लकड़ी को जरूर ले जाएं। कहा कि धार्मिक कार्यों के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी सहायतार्थ समिति के लोग बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाते आ रहे हैं। हर वर्ष छट पूजा के अवसर पर समिति के सदस्यों के द्वारा आम की लकड़ी का वितरण करने के साथ-साथ अर्घ्य के लिए दूध, गन्ना या फल इत्यादि का वितरण किया जाता रहा है। छठवर्तियों की सुविधाओं के मद्देनजर समिति के सदस्य छट घाट और रास्तों की सफाई में करते हैं। वहीं आम की लकड़ी वितरण और साफ-सफाई के कार्य में छट पूजा सहायतार्थ समिति के दीपक राज, हेमंत कश्यप, दीपक गुप्ता, आर्या ठाकुर डब्लू, अमित गुप्ता, सोनू सिंह, उषेन्द्र कु.यादव, मयंक विश्वकर्मा, अशोक कुमार, सुभम नाथ, गोविंद सोनी, राजीव सिन्हा, अमित मेहरा, अभय नाथ और सत्येंद्र कुमार समेत अन्य लोगों का मुख्य योगदान रहता है।



आम का लकड़ी।

बरावाडीह। छट पूजा सहायतार्थ समिति बरावाडीह के द्वारा छट महापर्व के अवसर पर प्रखंड मुख्यालय के बस स्टैंड में सभी छठवर्तियों के बीच निशुल्क आम की लकड़ी का वितरण किया जायेगा। उक्त जानकारी देते हुए सहायतार्थ समिति के सदस्यों ने सभी छठवर्तियों और श्रद्धालुओं से अपील किया है कि वह समय पर उक्त स्थल पर पहुंचकर आम की लकड़ी को जरूर ले जाएं। कहा कि धार्मिक कार्यों के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी सहायतार्थ समिति के लोग बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाते आ रहे हैं। हर वर्ष छट पूजा के अवसर पर समिति के सदस्यों के द्वारा आम की लकड़ी का वितरण करने के साथ-साथ अर्घ्य के लिए दूध, गन्ना या फल इत्यादि का वितरण किया जाता रहा है। छठवर्तियों की सुविधाओं के मद्देनजर समिति के सदस्य छट घाट और रास्तों की सफाई में करते हैं। वहीं आम की लकड़ी वितरण और साफ-सफाई के कार्य में छट पूजा सहायतार्थ समिति के दीपक राज, हेमंत कश्यप, दीपक गुप्ता, आर्या ठाकुर डब्लू, अमित गुप्ता, सोनू सिंह, उषेन्द्र कु.यादव, मयंक विश्वकर्मा, अशोक कुमार, सुभम नाथ, गोविंद सोनी, राजीव सिन्हा, अमित मेहरा, अभय नाथ और सत्येंद्र कुमार समेत अन्य लोगों का मुख्य योगदान रहता है।



बिहार में फिर शुरू हुई शिक्षकों की बांप्र बहाली

पटना। बीपीएससी से पास शिक्षकों को नियुक्ति-पत्र मिलने बाद अब एक बार फिर से शिक्षक बहाली के लिए नोटीफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण होगा। जिसमें कक्षा छह से 12 तक कुल 53 हजार 864 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग और पिछड़ा व अतिपिछड़ा वर्ग प्रधानाध्यापक समेत कुल 916 पदों पर बहाली होगी। इसके लिए विज्ञापन आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की शुरूआत 05 नवंबर से, जबकि 10 नवंबर से आवेदन भरे जाएंगे।

बिहार में एक नहीं...3 बार काफी थी धरती

पटना। बिहार के कई जिलों में शुक्रवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह एक नहीं तीन बार महसूस किया गया। आनन-फानन में लोग अपने घरों से बाहर निकले और डर से सहमे लोग लगभग पूरी रात घर से बाहर निकले रहे। लोगों के अंदर डर साफ देखने को मिल रहा था। बीती रात को एक बार नहीं बल्कि तीन बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीनों बार केन्द्र नेपाल ही रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक आशीष कुमार ने जानकारी दी।

गोड्डा नगर थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित हुए मधुसूदन मोदक

गोड्डा। आज गोड्डा नगर थाना प्रभारी के रूप में मधुसूदन मोदक पुलिस निरीक्षक ने ज्वाइन कर लिया। बहुत ही नए दिल इंसाण के रूप में जाने जाते हैं। इनका पदस्थापन चाईबासा के जगन्नाथपुर से गोड्डा किया गया। पूर्वी थाना प्रभारी पुलिसनिरीक्षक उमेश कुमार महतो को उच्च अधिकारी के निर्देश पर निलंबित किया गया है और आज ही पुलिस निरीक्षक मधुसूदन मोदक ने गोड्डा नगर थाना प्रभारी के रूप में ज्वाइन कर लिया।

जिला सामान्य शाखा की बैठक में दिशा-निर्देश

गोड्डा। आज दिनांक 04.11.2023 को उपायुक्त, गोड्डा जिशाण कमर की अध्यक्षता में सामान्य शाखा की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक के दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी सह सामान्य शाखा प्रभारी श्रीमती मोनिका बारसी के द्वारा सामान्य शाखा अंतर्गत किए गए कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। साथ ही साथ महोदयों के स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में अनुमंडल स्तर से प्राप्त विवरण के आधार पर रिपोर्ट महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा विविटम कंपनी सेशन, चौकीदारों की नियुक्ति, एवं चौकीदार के आवंटन एवं वेतन भुगतान से संबंध में मामलों पर विचार विमर्श किया गया।

परसाबाद में जेवर दुकान से सोने की चेन व पायल ले उड़ी महिला

जयनगर (कोडरमा)। प्रखंड अंतर्गत परसाबाद बाजार दुकान स्थित जेवर विक्रेता गोविंद प्रसाद बिहारी की परसाबाद जेवर दुकान से एक महिला सोने की नकचेन व पायल उड़ा ले गयी। इस संबंध में श्री बिहारी ने थाना में एक आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने बताया है कि दो नवम्बर की शाम उनकी दुकान में एक महिला अपने एक बच्चा के साथ आयी महिला ने सोने की नकचेन व पायल दिखाते को कहा, उन्होंने काउंटर से पायल व नकचेन का डब्बा निकाल कर देखने को दिया, जेवर देने के बाद महिला ने कहा कि इस पायल में घुंघरु नहीं है लगा दीवार, घुंघरु के लिए मशीन का तार लाने गया, इसी बीच उक्त महिला ने दोनों जेवर अपने बैग में डाल दिया, जो सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रहा है। जब में घुंघरु बना कर आया तो महिला ने कहा कि कार में मेरे पति बैठ हैं, जेवर दिखाकर पैसा लेकर आ रही हूँ मगर महिला कार में बैठकर फरार हो गयी।

पेट्रोल से झुलसकर तीन वर्षीय बच्चे की मौत

खबर मन्त्र संवाददाता

कोडरमा। मरकचो थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदरचौकवा में पेट्रोल से झुलसकर तीन वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल गया। मिली

जानकारी के अनुसार बंदरचौकवा मरकचो निवासी उमेश साव के तीन वर्षीय पुत्र राहुल कुमार साव अपने घर के चूल्हे के पास खेल रहा था। रसोईघर में एक बोटल में पेट्रोल रखा था। बच्चा खेलते

खेलते बोटल को छेद कर दिया, जिससे पेट्रोल बच्चे के शरीर पर गिर गया और चूल्हे की आग बच्चे को अपने चोट में ले लिया। वहीं बच्चे को बचाने के दौरान बच्चे की चाची सीता देवी पति

दीपक साव भी आग की चपेट में आ गई। घटना के बाद परिजनों ने आग को किसी तरह बुझाया एवं आनन फानन में बच्चा व महिला को सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद

बेहतर इलाज के लिए बच्चे को रिम्स रेफर कर दिया, वहीं रिम्स ले जाने के दौरान रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गयी। वहीं महिला का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है।

मृतक के नॉमिनी को मिला दो लाख रुपये का चेक



चेक प्रदान करते शाखा प्रबंधक

खबर मन्त्र संवाददाता

डंडई। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक डंडई की ओर से बैंक के एक मृतक के लाभुक नमिनी को प्रानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये का चेक दिया गया। लाभुक को उक्त चेक शाखा प्रबंकर संजीवा कुमार गौण ने प्रदान किया। मौके पर शाखा प्रबंकर ने बताया कि ग्राम बैलाझरका निवासी दस्तगीर

अंसारी उम्र 27 वर्ष जिनकी मृत्यु 2023 में आंतरिक बीमारी से हो गई थी। बैंक में नमिनी मृतक की मां शाहिबा बीबी को दो लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। मृतक ने जीवन ज्योति बीमा योजना कराया था, नमिनी में अपने मां का नाम दिया था। उन्होंने कहा है कि बैंक में जिसका खाता है वह उक्त बीमा चला कर सरकार द्वारा चलाई गयी बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।

विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन

कोडरमा। चेचाई चाराडीह स्थित विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल में इंटर वर्गीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिसमें कक्षा पंचम से कक्षा दशम तक के सभी छात्र-छात्राए शामिल होकर व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से कई अलग-अलग विज्ञान का मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया। जिसमें मुख्य रूप से वाटर हार्वैस्टिंग, लॉस फंक्शन, रवसन तंत्र, पाचन तंत्र, विद्युत कंडक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल शारीरिक भाग, स्टेथोस्कोप, वोल्कानो एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किडनी वर्किंग मॉडल, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, केमिकल रिफ्लेक्शन सहित सैकड़ों मॉडल शामिल था। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि संतोष कुमार सिंहा, शैलेंद्र कुमार सिंह, अग्रिमन पदाधिकारी कोडरमा, रामप्रवेश पांडेय, रमेश उपायाय उपस्थित हुए। सभी ने संयुक्त रूप से विवेकानन्द जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

एनएचएम यूनियन भवनाथपुर इकाई के अध्यक्ष बने डॉ नीतीश



बैठक करते कर्मी

खबर मन्त्र संवाददाता

भवनाथपुर। सीएचसी के अंतर्गत शनिवार को सभागार में सभी एनएचएम कर्मियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से एनएचएम यूनियन भवनाथपुर इकाई का गठन किया गया। जिसमें डॉ. नीतीश भारतीय को अध्यक्ष, राजकुमारी व चंचला ऐनएचएम को उपायक, डा. कमल

सिंह सैनी व रेणु बैजंती खलको को सचिव, प्रदीप कुमार पाठक को कोषायक, डा. इन्द्रकिशोर विश्वकर्मा को सह कोषायक, संजय कुमार रजक को संगठन मंत्री, डा. अभिनीत विश्वास, सिमा कुमारी को सह संगठन मंत्री, डा. निशंक निश्रम को मीडिया प्रभारी, डा. सोनी कुमारी को सह मीडिया प्रभारी, अनूप कुमार को तकनीकी प्रमुख बनाया गया है।

भारतीय बाजार में ग्रोथ बना रहेगा, इसलिए टाटा स्टील में मैन पावर कट की योजना नहीं: टीवी नरेंद्रन

कॉस्ट कंट्रोल और प्रोडक्टिविटी इम्यूव कर हम वैश्विक उतार-चढ़ाव का सामना करेंगे

विशेष संवाददाता

जमशेदपुर। टाटा स्टील के एमडी एंड सीडओ टीवी नरेंद्रन ने आज आर्ट ऑफ इंडस्ट्री के समापन समारोह में भाग लिया। इस दौरान वक्त निकाल कर उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। प्रस्तुत है उनसे किये गए सवाल और जवाब पर टीवी नरेंद्रन का जवाब :

सवाल : स्टील इंडस्ट्री का मौजूदा परिदृश्य के बारे में बताइए?

टीवी नरेंद्रन : स्टील इंडस्ट्री में अभी चुनौतियां बनी हुई है क्योंकि चीन की स्थिति कोई खास नहीं है। इसलिए वह अपना निर्यात विश्व बाजार में बढ़ा रहा है, यद्यपि इंडिया में उसका पहले की तरह भाल नहीं आ रहा है। इसके चलते स्टील का इंटरनेशनल प्राइस थोड़ा लो लेबल में है। उसका असर यूरोप में और बाकी हिस्सों में दिख रहा है। दूसरी बात कि यूरोप में हमारे एक ब्लास्ट फर्नेस की रीलाइनिंग चल रही है। उसके चलते नीदरलैंड में थोड़ा प्रीडक्शन कम था। नीदरलैंड में नॉर्मली हमारे लिए प्रोफिटबल यूनिट है। ब्लास्ट फर्नेस की रीलाइनिंग के चलते नीदरलैंड की यूनिट भी बीते तिमाही में घटे में थी। तीसरा हमारे यूके के प्लांट में री-स्ट्रक्चरिंग का काम चल रहा है। उसी वजह से वन टाइम इम्पारमेंट भरना पड़ा। इसके चलते तिमाही में टाटा स्टील का निगेटिव प्रोफिट दिख रहा था। भारत में हम पोजिटिव है, भारत में उपायुक्त का काम चल रहा है।

प्रश्न : भारत में टाटा स्टील लिमिटेड का 40 मिलियन टन प्रोडक्शन कैपेसिटी के ड्रीम प्रोजेक्ट में क्या प्रगति है?

टीवी नरेंद्रन : अभी पूर्वी भारत में हमारा जो विस्तार है वह आयरन ओर और कोल पर आधारित है। जब भी यहां गैस मिल सकेगा तब कोयला के विकल्प देखेंगे। वेस्ट अथवा नार्थ जहां स्कैप एवैलेबुल है वहां स्कैप बेस यूनिट लगा रहे हैं। तीन साल पहले रोहतक में स्कैप बेस प्लांट लगाया था और हाल में हमलोगों ने लुधियाना में इलेक्ट्रिक फर्नेस बेस प्लांट लगाना शुरू किया है। यह दो साल में रेडी हो जायेगा। इस तरह रोहतक

और लुधियाना प्लांट के उत्पादन को उस क्षेत्र में बेचेंगे। उधर टाटा पावर से हमलोगों ने टाई अप किया है, जो हमें ग्रीन पावर उपलब्ध करायेगा। यह लो कार्बन प्रोजेक्ट है। जमशेदपुर प्लांट की तुलना में वहां कार्बन इमिशन बहुत कम रहेगा। जमशेदपुर में कार्बन इमिशन दो टन प्रति टन स्टील है लुधियाना में .2 - 3 टन कार्बन इमिशन होगा। इतना बड़ा फर्क है।

सवाल : विश्व बैंक ने रूस-यूक्रेन और इसराइल-गाजा युद्ध को देखते हुए वर्ल्ड इकोनोमी में सुस्ती की बात कही है, टाटा स्टील इसका सामना करने के लिए कितना तैयार है।

टीवी नरेंद्रन : वो तो करना है। हमारा इंडस्ट्री ग्लोबल इंडस्ट्री है। ग्लोबल प्रभाव भी हम पर पड़ता है। इंडिया में एक अच्छी बात है कि यहां स्टील की डिमांड बढ़ रही है लेकिन इंडिया में स्टील की प्राइस ग्लोबल प्राइस पर निर्भर करेगा। इसीलिए हमलोगों ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल प्राइस पर ध्यान रखते हैं। हम ग्लोबल प्रभाव नियंत्रित नहीं कर सकते किन्तु कॉस्ट को नियंत्रित कर जोखित या असर कम अवश्य कर सकते हैं। कॉस्ट नियंत्रण ही हमारे हाथ में है।

ग्लोबल डिमांड पर इस्पात की कीमत में उतार-चढ़ाव आते रहता है। बीते कुछ हफ्ते में डिमांड बढ़ने से स्टील का प्राइस बढ़ गया था, फिर थोड़ा साफ था, प्राइस कोयला, एवं अन्य इनपुट कारकों पर भी निर्भर करता है। उतार-चढ़ाव होते रहता है।

सवाल : टाटा स्टील अर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एआई को अपनाने एवं इससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कितना तैयार है?

टीवी नरेंद्रन : जो भी टेक्नोलोजी नयी आती है जैसे 30 साल पहले कंप्यूटर आया था तो लोग पूछते थे क्या इससे जीव जायेगा? लेकिन कंप्यूटर का एडवांटेज सभी ने देखा कि कैसे उत्पादकता बढ़ती है। एआई को भी हमें इसी नजरिए से देखना चाहिए कि कैसे हम थ्रेट को ऑपरच्युनिटी में बदल सकते हैं। टाटा स्टील ने बीते पांच-छह साल में टेक्नोलोजी में बहुत इन्वेस्ट किया है। बहुत



आर्ट इन इंडस्ट्री के समापन समारोह में बोलते टाटा स्टील के एमडी एंड सीओ श्री टीवी नरेंद्रन।

सारा डेटा प्रोडक्शन में आता है, अब वेब के फंक्चर कर उसे एनालाइज कर रहे हैं। एआई के यूज करने से बहुत सारा इनसाइड मिलता है जो मैनुअली नहीं मिलता था। दूसरी बात कि बहुत से कंट्रोल रूम हमलोग प्लांट से बाहर लेकर आये हैं क्योंकि अब रिमोट कंट्रोल आसान हो गया है। उम्मीद है कि एआई और टेक्नोलोजी यूज करके हमलोग टाटा स्टील में उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने में कामयाब होंगे। एआई से मैनुपावर को भी फायदा होगा, हम इसके जरिए अपने कार्य स्थल को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। टाटा स्टील में हमलोग नहीं टेक्नोलोजी का हमेशा पोजिटिव एपेक्ट देखते हैं।

सवाल : अभी कारपोरेट जगत में सप्ताह में 70 घंटे काम करने को लेकर चर्चा छिड़ी है, इस पर आपका क्या नजरिया है?

टीवी नरेंद्रन : यह तो मिस्टर नारायण मूर्ति का एक व्यू है, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। पर दो तीन चीजें हैं, हम यह कमेंट नहीं करेंगे कि कितना घंटा काम करना है पर हाई वर्क तो जरूरी है। वे सही बोल रहे हैं किन्तु कितना हाई वर्क करना है यह व्यक्ति का च्वाइस है। और, दूसरा कि हमलोगों को इनपुट के अलावा आउटपुट भी देखना चाहिए।

सवाल : यूरोप को तरह भारत में भी मैन पावर कट की स्थिति बन रही है क्या?

टीवी नरेंद्रन : इंडिया में हमलोगों ने बीते 30 साल में बहुत कुछ किया है। डा ईरानी के समय से उत्पादकता में काफी सुधार किया है। इंडिया में एक बात है कि बहुत सारे लोग रिटायर होने जा रहे हैं। वो हमारे लिए एक

ऑपरच्युनिटी है। दूसरा कि इंडिया में हमारा ग्रोथ भी हो रहा है। यूरोप में ग्रोथ नहीं है। इसलिए भारतीय ऑपरेशन में ऑपरच्युनिटी ज्यादा है।

सवाल : भारत में टाटा स्टील ने काफी महत्वकांक्षी विस्तार योजना तैयार की है। नये प्लांट नयी पीढ़ी को प्रोद्योगिकी लेकर आयेगे। ऐसे में क्या भविष्य के क्वालिटी मैन पावर की उपलब्धता को लेकर टाटा स्टील की क्या तैयारी है?

टीवी नरेंद्रन : देखिये तो तो बातें हैं, एक तो इनपुट क्वालिटी और दूसरी बात कि कैसे हम ट्रेनिंग करके एक लेवल में अपने मैन पावर को ले आयें। सालों से यह कर रहे हैं। एस्पेन्टीआई का यहाँ काम है, हम किसी को भी ट्रेनिंग देकर वर्ल्ड क्लास ऑपरैटर बना सकते हैं। यही हमारी ताकत है। इसी तरह जेएनटीवीआई के जरिए अब अपने वेंडर वर्क फोर्स को ट्रेनिंग देकर वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। हम ट्रेनिंग देकर अपने वेंडर को क्वालिटी मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं।

सवाल : जमशेदपुर प्लांट में इलेक्ट्रिक फर्नेस की संभावना है?

टीवी नरेंद्रन : वैश्विक स्तर पर यह देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फर्नेस अपनाने से कोयला की जरूरत नहीं रहेगी। इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। स्टील प्लांट में कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होने का मेन कारण कोयला है। इसके लिए बिजली और स्कैप उपलब्ध करना चाहिए। लुधियाना और रोहतक में दोनों चीजें उपलब्ध है इसलिए वहां हमलोग इलेक्ट्रिक फर्नेस लगा रहे हैं।

सवाल : टाटा स्टील खेल और कला को शुरू से ही बढ़ावा देती आ रही है। आने वाले दिनों में इन सेक्टर के लिए कंपनी के पास क्या-क्या योजना है?

टीवी नरेंद्रन : जो हमलोग कर रहे हैं वो करते रहेंगे किन्तु यह कोई जरूरी नहीं है कि हर साल कुछ नया हो। किन्तु इतना अवश्य है कि जो कर रहे हैं वो और अच्छे से करते रहना है। दो हफ्ते में संवाद शुरू हो रहा है वह बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। हम 10 ही चीज करेंगे किन्तु वह हाई क्वालिटी होना है।

सवाल : यूरोप को तरह भारत में भी मैन पावर कट की स्थिति बन रही है क्या?
टीवी नरेंद्रन : इंडिया में हमलोगों ने बीते 30 साल में बहुत कुछ किया है। डा ईरानी के समय से उत्पादकता में काफी सुधार किया है। इंडिया में एक बात है कि बहुत सारे लोग रिटायर होने जा रहे हैं। वो हमारे लिए एक

ऑपरच्युनिटी है। दूसरा कि इंडिया में हमारा ग्रोथ भी हो रहा है। यूरोप में ग्रोथ नहीं है। इसलिए भारतीय ऑपरेशन में ऑपरच्युनिटी ज्यादा है।
सवाल : भारत में टाटा स्टील ने काफी महत्वकांक्षी विस्तार योजना तैयार की है। नये प्लांट नयी पीढ़ी को प्रोद्योगिकी लेकर आयेगे। ऐसे में क्या भविष्य के क्वालिटी मैन पावर की उपलब्धता को लेकर टाटा स्टील की क्या तैयारी है?

टीवी नरेंद्रन : देखिये तो तो बातें हैं, एक तो इनपुट क्वालिटी और दूसरी बात कि कैसे हम ट्रेनिंग करके एक लेवल में अपने मैन पावर को ले आयें। सालों से यह कर रहे हैं। एस्पेन्टीआई का यहाँ काम है, हम किसी को भी ट्रेनिंग देकर वर्ल्ड क्लास ऑपरैटर बना सकते हैं। यही हमारी ताकत है। इसी तरह जेएनटीवीआई के जरिए अब अपने वेंडर वर्क फोर्स को ट्रेनिंग देकर वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। हम ट्रेनिंग देकर अपने वेंडर को क्वालिटी मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं।
सवाल : जमशेदपुर प्लांट में इलेक्ट्रिक फर्नेस की संभावना है?

टीवी नरेंद्रन : वैश्विक स्तर पर यह देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फर्नेस अपनाने से कोयला की जरूरत नहीं रहेगी। इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। स्टील प्लांट में कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होने का मेन कारण कोयला है। इसके लिए बिजली और स्कैप उपलब्ध करना चाहिए। लुधियाना और रोहतक में दोनों चीजें उपलब्ध है इसलिए वहां हमलोग इलेक्ट्रिक फर्नेस लगा रहे हैं।
सवाल : टाटा स्टील खेल और कला को शुरू से ही बढ़ावा देती आ रही है। आने वाले दिनों में इन सेक्टर के लिए कंपनी के पास क्या-क्या योजना है?

टीवी नरेंद्रन : जो हमलोग कर रहे हैं वो करते रहेंगे किन्तु यह कोई जरूरी नहीं है कि हर साल कुछ नया हो। किन्तु इतना अवश्य है कि जो कर रहे हैं वो और अच्छे से करते रहना है। दो हफ्ते में संवाद शुरू हो रहा है वह बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। हम 10 ही चीज करेंगे किन्तु वह हाई क्वालिटी होना है।

बोर्ड का गवर्नेस टी कृष्ण प्रसाद ने कहा की एनआईटी के इतिहास में पहली बार 42 छात्र पीएचडी की डिग्री हासिल किये हैं जो गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि एनआईटी कॉलेज रैंकिंग सुधार को लेकर भी लगातार बेहतर प्रयास हो रहे हैं, बताया की टॉप 100 के लिए रैंकिंग बढ़ी है, जल्द ही इसका बेहतर नतीजा देखने को मिलेगा। एनआईटी के निदेशक गौतम सूत्रधार ने कहा कि हम साल में 80 पी.एचडी छात्र देने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।



एक नजर में

झामुमो के पौडैयाहाट सम्मेलन में झामुमो के केन्द्रीय समिति सदस्य राजेश मंडल शामिल हुए



खबर मन्त्र संवाददाता

गोड्डा। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पौडैयाहाट प्रखंड के बांझी पंचायत झारखण्ड मुक्ति मोर्चा समिति का सम्मेलन देर संध्या, बांझी हाट मैदान के हटिया सेड में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अवध किशोर हांसदा ने किया और संचालन प्रखंड उपाध्यक्ष बासु मंडल ने किया। सम्मेलन का आयोजन वरिष्ठ नेता प्रणय मण्डल ने किया।पबंधक के रूप में जिला उपाध्यक्ष सह केन्द्रीय समिति सदस्य घनश्याम यादव एवं केन्द्रीय समिति सदस्य कौशलेंद्र टुट्टू उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला उपाध्यक्ष सह केन्द्रीय समिति सदस्य राजेश मंडल उपस्थित हुए।उन्होंने अपने संबोधन में हेमंत सरकार की दर्जनों योजनाओं को जनता के बीच रखते हुए कहा आदिवासी,

रामचरितमानस बनेगा राष्ट्रग्रंथ, निंदा पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का केस : जगद्गुरु रामभद्राचार्य

खबर मन्त्र संवाददाता

बेतिया। खबर बगहा से है जहां तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य ने दावा किया है कि रामचरितमानस बहुत जल्द राष्ट्र ग्रंथ होगा और इसकी निंदा करने पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होगा। पटना के गांधी मैदान में उनके प्रस्तावित कथा कार्यक्रम को पटना प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कि बहुत जल्द ही बिहार में गुंडों की सरकार हटेगी और उनकी कथा होगी।



उन्होंने सांकेतिक रूप में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी भी निशाना साधा. तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य ने बगहा में कथा वाचन के दौरान कहा कि बहुत जल्द रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ बनेगा।

पेज 1 का शेड

मियावाली एयरवेस पर आतंकी...

पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में दिखाया गया जिसमें एयरवेस के अंदर आग की भारी लपटें दिखी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दहशतगद सौधे एयरवेस में घुस गये।**एफ - 16 के पायलटों यहां मिलता है प्रशिक्षण :** मियावाली पाकिस्तान का प्रमुख एयरबेस है, जहां एफ-16 के पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है। आतंकों ने यहाँ पर हमला बोला। पाकिस्तान वायु सेना (पीएफए) ने कहा कि उन्होंने जवाबी गोलीबारी में नौ आतंकवादियों को मार गिराया। पांच से छह भारी हथियारों से लैस लोगों के एक समूह ने सुबह-सुबह हमला किया, जिसके बाद गोलीबारी हुई। पाकिस्तानी सेना के प्रॉपर्टीडा विंग आइएएसपीआर ने कहा कि हमले के दौरान पहले से ही जमीन पर खड़े तीन विमानों और एक ईंधन बोजर को भी कुछ नुकसान हुआ। आइएएसपीआर ने कसम खाई कि पाकिस्तान के सशस्त्र बल हर कीमत पर देश से आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस हमले से कुछ घंटे पहले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुए आतंकी हमलों में कम से कम 17 सैनिकों की मौत हो गयी।

नेपाल में भूकंप से भारी...

कठामंडू में अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भूकंप के चलते नेपाल के कई जिले तबाह हो गये। कई इमारतें भूकंप के दौरान ध्वस्त हो गयी है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' देश के भूकंप प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। अधिकारी के अनुसार भेरी अस्पताल, कोहलपुर मेडिकल कॉलेज, नेपालगंज सैन्य अस्पताल और पुलिस अस्पताल को भूकंप प्रभावितों के लिए सर्मापित अस्पताल बनाया गया है। नेपाल में सभी हेली-ऑपरेटर्स को तैयार रहने के लिए कहा गया है। प्रभावित क्षेत्रों से घायलों को एयरलिफ्ट करने की सुविधा के लिए नियमित उड़ान आवाजाही निलंबित कर दी गयी है।

सीआइएसएफ के सुरक्षा...

बल्कि इडी के दो अफसरों को तो नुकसान पहुंचाने के लिए आरोपियों ने झारखंड के एक गैंगस्टर से भी संपर्क साध लिया था। रांची जेल में बंद गैंगस्टर के एक गुंमे से इस बाबत आरोपियों ने बैठकर प्लानिंग भी की थी। मामले की जानकारी हासिल होने के बाद इडी ने शुक्रवार को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में छापेमारी की थी। सूचना यह भी थी कि आरोपियों ने इंडी अफसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए पहले नक्सलियों से संपर्क किया था। इडी के रडार पर जेल प्रशासन : सूत्र बताते हैं कि जेल में बंद आरोपियों को जेल प्रशासन के द्वारा भी मदद पहुंचाई जा रही थी। जेल में बंद आरोपी एप्पल के फेस टाइम एप के जरिए बाहर के लोगों के संपर्क में थे। इसी सूचना पर इडी की टीम रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में शुक्रवार की शाम छापेमारी के लिए पहुंची थी। इंडी ने जेल में बंद आरोपियों के वार्ड को भी खंगाला था, लेकिन उस दौरान किसी के पास से मोबाइल नहीं मिला। उस दौरान आरोपियों से जेल के भीतर पूछाछा भी की गयी। इससे पहले इंडी ने जमीन घोचले से जुड़े इसीआईआर में कोर्ट से जेल में छापेमारी संबंधित वारंट हासिल किया था।

मेहनत से रेशन करें घर...

माता-पिता के साथ-साथ उनके बच्चे भी मिट्टी के दीये, बर्तन, खिलौने, धरौं दे बानाने में मदद कर रहे हैं। कोई मिट्टी गुंथने में व्यस्त है तो किसी के हाथ चाक पर मिट्टी के बर्तनों को आकार दे रहे हैं।**विदेशी लाइट्स और झालरों ने ली जगह :** आधुनिकता के इस दौर में दीया की जगह बिजली की झालरों ने ले ली है। ऐसे में कुम्हारों के सामने आजीविका का संकट गहरा गया है। चाइनीज झालरों ने इन कुम्हारों को और नुकसान पहुंचाया है। इसके चलते साल भर इस त्योहार का इंतजार करने वाले कुम्हारों की दिवाली में अब पहले जैसी रौनक नहीं रह गयी है।



टाइम पत्रिका के कवर पृष्ठ पर प्रधानमंत्री शेख हसीना

एजें

वाशिंगटन। अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम के आवरण पृष्ठ (कवर पेज) पर जगह बनाने वाली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक साक्षात्कार में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए उनकी सरकार को हटाना मुश्किल है। बांग्लादेश में जनवरी 2024 में चुनाव होने हैं। पत्रिका द्वारा जारी साक्षात्कार के अंश के अनुसार हसीना ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरी आवाज मेरे साथ है। वे मेरी मुख्य ताकत हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए मुझे हटाना इतना आसान नहीं है। एकमात्र विकल्प केवल मुझे खत्म करना है और मैं अपने लोगों के वास्ते मरने के लिए तैयार हूँ। न्यूयॉर्क स्थित समाचार संस्थान ने बताया कि पत्रिका के 20 नवंबर के संस्करण के आवरण

बोली-बांग्लादेश से उनकी सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से हटाना मुश्किल



» हसीना ने जूट उत्पाद से एशिया-प्रशांत क्षेत्र को बांग्लादेश को उभरती अर्थव्यवस्था में बदला

राजनीतिक सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्होंने 17 करोड़ की आबादी वाले इस देश को देहाती जूट उत्पाद से एशिया-प्रशांत की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में बदल दिया। पहले के 1996 से 2001 के कार्यकाल के बाद 2009 से पद पर रहते हुए वह दुनिया में किसी देश की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख हैं और उन्हें फिर से सिर उठा रहे इस्लामावादियों और एक समय में हस्तक्षेप करने वाली सेना दोनों के पर कतरने का श्रेय दिया जाता है।

पृष्ठ पर हसीना को जगह मिली है। यह संस्करण 10 नवंबर को बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। टाइम के

चार्ली कैम्पबेल की कवर स्टोरी में कहा गया है कि 76 साल की उम्र में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ऐसी

बांग्लादेश में लोकतंत्र का भविष्य शीर्षक वाली इस कवर स्टोरी के अनुसार, हसीना के शासन में देश ने उनकी आवाजी लीग पार्टी के तहत एक सत्तावादी रूप अपनाया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने बढ़ी अनियमितताओं को लेकर देश में पिछले दो चुनावों की निंदा की थी। आज, दो बार की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी नेता खालिदा जिया भ्रष्टाचार के संदिग्ध आरोपों में अपने घर में नजरबंद होकर गंभीर रूप से बीमार हैं। इस बीच, बीएनपी कार्यकर्ताओं पर 40 लाख कानूनी मुकदमे दर्ज हैं जबकि स्वतंत्र पत्रकार और नागरिक समाज प्रतिशोध की कार्यवाई के कारण उत्पीड़न की शिकायत करते हैं। अलोकचक्र कहते हैं कि जनवरी में होने वाले चुनाव ताजपोशी और हसीना के एक तानाशाह बनने के समान है।

एक नजर में

कोच्चि में भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर चेतक दुर्घटनाग्रस्त, दो अधिकारी घायल



कोच्चि। भारतीय नौसेना का एक चेतक हेलीकॉप्टर शनिवार को प्रशिक्षण के दौरान आईएनएस गरुड़ के रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इससे उसमें सवार दो अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक घटना दोपहर करीब 2.30 बजे की है। सात लोगों के बैठने की क्षमता वाले हेलीकॉप्टर में घटना के समय दो व्यक्ति सवार थे। जहां दोनों अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यह एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। दोनों घायलों का यहां नौसेना बेस अस्पताल में इलाज चल रहा है। नौसेना अधिकारियों ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

मधुकर पवार बने सीबीआई का संयुक्त निदेशक नयी दिल्ली। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण मधुकर पवार को पांच साल के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। पवार 2003 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पांच साल के लिए सीबीआई के संयुक्त निदेशक पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

कुप्यांस्क में यूक्रेन के 125 सैनिकों मारे गए मॉस्को। रूस के सशस्त्र बलों ने कुप्यांस्क में यूक्रेनी सैनिकों और अस्थायी तौर पर तैनात जवानों पर हमला किया जिसमें 125 यूक्रेनी सैन्य जवान मारे गए हैं। पश्चिमी समूह के प्रवक्ता सर्गेई ज्यविंस्की के हवाले से स्पूतनिक को यह जानकारी मिली है। श्री सर्गेई ज्यविंस्की ने कहा, हनुशमनो ने अपने 125 सैनिकों और दो बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को खो दिया। उन्होंने कहा कि रूसी हवाई हमलों से अन्य सैन्य उपकरण और हथियार के साथ ही एक रडार स्टेशन भी प्रभावित हुआ है।

तमिलनाडु में कुख्यात बदमाश अलेक्जेंडर गिरफ्तार तिरुचिरापल्ली। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में थोटियाम के सलापट्टी गांव में शुक्रवार की रात एक पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाने के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि कुख्यात बदमाश के अलेक्जेंडर के बारे में विशेष सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्यवाई की। पुलिस के मुताबिक अलेक्जेंडर के खिलाफ हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। वह एक पहाड़ी की तलहटी में छुपा हुआ था। उसके पास से देसी हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इस कार्यवाई को अंजाम थोटियाम थाने के निरीक्षक मुथैयन के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने दिया।

पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा भेदीही। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने बलात्कार के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को 15 साल के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार को सजा का एलान किया। राज्य सरकार की ओर से बहस करने वाले अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय कुमार बिंद ने नए बताया कि आज सुबह 11 बजे मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई, जिसके लिए सुबह 10 बजे विजय मिश्रा को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाया गया था। कोर्ट के बाहर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी।

महाराष्ट्र के रायगढ़ में दवा फैक्टरी में आग लगने से चार लोगों की मौत, सात घायल

मुंबई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक दवा कंपनी में विस्फोट के बाद आग लगने की घटना में चार लोगों की मौत हो गयी और सात अन्य घायल हो गए तथा सात लापता लोगों का पता लगाने के लिए तलाश अभियान चलाया जा रहा है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के एक अधिकारी ने बताया कि आग शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे पड़ोसी रायगढ़ में महाड एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित ब्लू जेट हेल्थकेयर कंपनी में लगी।

कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाएं ही बची हैं : मोदी

एजेंसी

रतलाम/भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश हो या प्रदेश, कांग्रेस के पास झूठी घोषणाएं ही बची हैं। मध्य प्रदेश के विकास के लिए टोस रोडमैप क्या होगा, ये कांग्रेस के नेता सोच ही नहीं सकते। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं। इनके डायलॉग और घोषणाएं भी फिल्मी हैं। जब किरदार फिल्मी है तो सीन भी फिल्मी होगा। यहां कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने का कॉम्पिटिशन चल रहा है। अभी तो वे फिल्म का ट्रेलर है। ये अपने-अपने चेहरों को ब्रताते हैं, उसके बाद वे अपने तो फाड़ेंगे, आपके भी फाड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के रतलाम के बंजली ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रतलाम की पहचान स्वाद के लिए है। रतलाम आए और रतलामी सेव नहीं खाये तो उसे रतलाम आया माना नहीं जाता है। जनता-जनार्दन के अपार समर्थन से साफ है कि भाजपा मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाने जा

मग्न में दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने का चल रहा प्रतियोगिता



रही है। जब तीन दिसंबर को भाजपा सरकार की वापसी का जश्न मानेगा तो लड्डू के साथी रतलामी सेव भी खाया जाएगा। मोदी ने कहा कि मग्न में भाजपा के समर्थन में चल रही आंधी अद्भुत है। जो लोग दिल्ली में बैठकर गुणा-भाग करते हैं, उनका हिसाब बदल जाएगा। चर्चा यह नहीं होगी कि कौन जीतेगा। चर्चा यह होगी कि मध्य प्रदेश में भाजपा दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं। उन्होंने कहा कि मग्न की जनता को भाजपा पर विश्वास तब से है, जब देश में भाजपा को बेहद कम लोग जानते थे। आज तो भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है।

सीमा पार भी घुसकर मार सकता है भारत : राजनाथ

रक्षा मंत्री बोले-दुनिया की कोई भी ताकत धमकी देने की हिम्मत नहीं करेगा

एजेंसी

भोपाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश करता है तो भारत उसे सीमा के इस पार और जरूरत पड़ने पर उस पार भी खत्म कर सकता है। सिंह भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट के अंतर्गत खनेता गांव में भाजपा के उम्मीदवार लाल सिंह आर्य के लिए प्रचार करते हुए एक रैली को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि भारत का गौरव पूरे विश्व में बंदू रहता है।

कांग्रेस के शासनकाल में विदेशों में लोग कहते थे कि भारत कमजोर देश है। दुनिया हमारी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती थी। उन्होंने कहा कि अब स्थिति बदल गई है और अगर भारत अंतरराष्ट्रीय



मंच पर कुछ कहता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। उन्होंने कहा कि अब आपका भारत कोई कमजोर देश नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत भारत को धमकी देने की हिम्मत नहीं कर सकती। सिंह ने कहा कि अगर कोई किसी नापाक हरकत को अंजाम देने की

कोशिश करता है तो भारत उन्हें सीमा के इस तरफ खत्म कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सीमा के दूसरी तरफ भी उन पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि भिंड जिले में हर पांच परिवारों में से एक व्यक्ति सेना में है। उन्होंने कहा कि वह ऐसे परिवारों का अभिन्नदल

करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश पहले बीमारू राज्य था लेकिन देश के लोग अब कह रहे हैं कि अगर विकास देखना है तो मध्य प्रदेश जाना होगा। उन्होंने कहा कि यह देश का सबसे स्वच्छ राज्य है। मंत्री ने कहा कि 2001-02 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय केवल 11,718 रुपये थी और अब 2023 में यह 40 गुना बढ़कर 1.40 लाख रुपये से अधिक हो गई है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश की विकास दर भारत के जीडीपी से अधिक है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां सरकार किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत वितरित की जाने वाली समान राशि के अलावा अपने खजाने से प्रति वर्ष 6,000 रुपये देती है।

देश के पहले हकदार आदिवासी: राहुल गांधी



जगदलपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को जगदलपुर के लालबाग मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि पांच साल के अंदर किसी उद्योगपति ने अपना काम चालू नहीं किया तो उसकी जमीन वापस करने का वादा कांग्रेस ने पूरा किया। अड़ानी के प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने निरस्त करके दिखाया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा नेता आदिवासी

को वनवासी कहते हैं, यह आदिवासियों का अपमान है। आदिवासी का मतलब इस देश के पहले हकदार हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मांग बैंक की है, क्योंकि हमने किसानों की जेब में पैसे डाले। हमने वादा किया था कर्ज माफ करके दिखाएंगे, 23 हजार करोड़ रुपये किसानों के अकाउंट में डाल कर दिखाया। हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं।

मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला तेलंगाना से गिरफ्तार

मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को लगातार पांच धमकी भरे ई-मेल भेजने वाले आरोपित को महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार किया। आरोपित की पहचान गणेश रमेश वनपारधी के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपित को शनिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपित को 08 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार मुकेश अंबानी के ई-मेल पर एक हफ्ते के अंदर पांच ई-मेल आए थे। मेल का जवाब न देने पर पहले 20 करोड़ रुपये फिर 200 करोड़ और 400 करोड़ की फिरोती मांगी गई और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी। मुकेश अंबानी को पहला धमकी भरा ई-मेल पिछले हफ्ते मिला था। इसके बाद 31 अक्टूबर और 01 नवंबर को दो और ई-मेल भेजे गए।

पहले मेल को नजरअंदाज करने पर दूसरा ई-मेल भेजा गया और 20 करोड़ की जगह 40 करोड़ की मांग की गई थी। इसके बाद पांच दिनों में मेल की संख्या और फिरोती की रकम बढ़ती गई। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस, क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने जांच शुरू की। ई-मेल ट्रेस करने के बाद पुलिस ने आरोपित को तेलंगाना से गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस गिरफ्तार आरोपित गणेश वनपारधी से गहन पूछताछ कर रही है।

जमीन कब्जाने वाले दबंगों के खिलाफ होगी कार्रवाई : योगी

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान जमीन कब्जा किए जाने से जुड़ी शिकायतों पर उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि जमीन कब्जाने वाले दबंगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसी ही एक शिकायत लेकर पहुंची महिला को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि उनकी जमीन को कब्जामुक्त करने के साथ ही आवास भी बनवाया जाएगा। शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में जुटे करीब 300 लोगों से मुख्यमंत्री मिले। उन्होंने मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठे लोगों तक खुद जाकर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समस्या निस्तारण के लिए चर्चित कार्यवाही का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों को भरोसा



दिया कि सबकी समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। जिन्हें आवास की समस्या है, उन्हें सरकारी योजना से आवास दिलाया जाएगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किसी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा।

विककी कौशल ने शेयर की वर्कआउट की तस्वीर

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता विककी कौशल ने सोशल मीडिया पर अपनी वर्कआउट की तस्वीर शेयर की है।

विककी कौशल ने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की। इस फोटो में विककी कौशल जिम में शीशे के सहारे खड़े होकर पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा 'आप जो महसूस करते हैं उसे देखें, जो आपको करना चाहिए वही करें'। विककी कौशल की इस पोस्ट पर उनकी पत्नी और अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने कमेंट करते हुए लिखा 'हम्म, किस बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसा कहा है'। विककी कौशल ने दलद फिल्म 'सैम बहादुर' में दिखाई देने वाले हैं। यह फिल्म 01 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।



छट के बरतिया का गाना चला छट गीत गावल जाय रिलीज

मुंबई। भोजपुरी अभिनेत्री स्मृति सिन्हा और माही श्रीवास्तव की फिल्म छट के बरतिया का गाना चला छट गीत गावल जाय रिलीज हो गया है। एआरके वर्कस चैनल रलाकर कुमार प्रस्तुत भोजपुरी फिल्म छट के बरतिया का गाना चला छट गीत गावल जाय वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म के निर्माता कुलदीप श्रीवास्तव और निर्देशिता कुमार हैं। इस छट गीत को पारदर्शिका प्रियंका सिंह ने गाया है और इसके वीडियो में स्मृति सिन्हा ववावाहा

बहु के रूप में छठी मैया की व्रत करने की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। वह ससुराल में घरवालों से घर के साफ सफाई व सजावट करने के लिए तथा छट मां की पूजा की तैयारी के बारे में कह रही हैं। छट के बरतिया के निर्देशक कन्हैया एव विश्वकर्मा हैं। कॉन्सेप्ट एव प्रोजेक्ट डिजाइन देव पाण्डेय ने किया है। इस फिल्म में स्मृति सिन्हा, अंशुमन मिश्रा, माही श्रीवास्तव, समर्थ चतुर्वेदी, रिंतु पाण्डेय प्रतिभा साहु, शुभाकिशन शुक्ला, अनामिका तिवारी, अंजली तिवारी, अशोक गुप्ता सहित कई कलाकार हैं।

आईडीएफ ने हमाम की कई सुरंगों को किया नष्ट

तेल अवीव। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने गाजा पट्टी में हमाम आतंकवादी समूह की कई भूमिगत सुरंगों को नष्ट कर दिया है और कई आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना ने शनिवार को कहा कि आईडीएफ डिवीजन कमांड 460 ने कई भूमिगत सुरंगों को नष्ट कर दिया। यूनिट के बख्तरबंद कोर और इंटीलेजेंस के साथ आगे बढ़कर हमाम के आतंकवादियों को मार गिराया। हमाम से संबंध अल-अस्सा रेडियो ने बताया कि आईडीएफ के ड्रोन ने शनिवार को गाजा में आतंकवादी समूह के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानियेह के घर पर एक मिसाइल दागी। आईडीएफ ने कहा कि यूनिट पर सुरंग के प्रवेश द्वारों से कई बार हमला किया गया था। चूंकि उसके पास उचित और केंद्रित खुफिया जानकारी थी, इसलिए वह सुरंगों को नष्ट कर सकता था और कई आतंकवादियों को मार सकता था।

न्यू दाम् म्युजिकल स्टोर्स

DEALS IN

YAMAHA	GILLESPIE	BOSS	BASSI	ZORAN	CASIO	PAISE	Pearce
DAZZLE	Gibson	ESP	Digitech	John	KORG	WARRIORS	Amer
X	Zebur	Poland	Hotwire	Altera	Egnite	STRAND	Carl
	Givson		strange	#7AMA			

Opp. Sankat Mochan Hanuman Mandir, Main Road, Ranchi-1 (Jharkhand)
Ph.: 72509-33033 | M.: 98351-64815

वर्मा प्रेस प्रा० लि० राँची

Verma's Today

शुंखला की निम्न पुस्तकों सर्वत्र उपलब्ध हैं—

Class - X		Class - IX	
• Hindi	₹ 140	• Hindi	₹ 140
• English	₹ 140	• English	₹ 140
• Mathematics	₹ 140	• Mathematics	₹ 140
• Science	₹ 140	• Science	₹ 140
• Social Science	₹ 140	• Social Science	₹ 140
• Sanskrit	₹ 120	• Sanskrit	₹ 120
• Hindi - B	₹ 140	• Hindi - B	₹ 80
• Hindi Vyakaran-I	₹ 120	• Hindi Vyakaran-II	₹ 120
• English Grammar - II	₹ 120	• English Grammar - II	₹ 120
• Sanskrit Vyakaran-II	₹ 100	• Sanskrit Vyakaran-II	₹ 100
• Hindi Practical	₹ 55	• Hindi Practical	₹ 55
• English Practical	₹ 55	• English Practical	₹ 55
• Maths. Practical	₹ 65	• Maths. Practical	₹ 65
• Science Practical	₹ 65	• Science Practical	₹ 65
• S. Science Practical	₹ 65	• S. Science Practical	₹ 65
• Sanskrit Practical	₹ 55	• Sanskrit Practical	₹ 55
• Maths. Practical (Combined)	₹ 90	• Maths. Practical (Combined)	₹ 75
• Science Practical (Combined)	₹ 90	• Science Practical (Combined)	₹ 75

English Medium

English Medium		English Medium	
• Mathematics	₹ 200	• Mathematics	₹ 180
• Science	₹ 200	• Science	₹ 200
• Social Science	₹ 200	• Social Science	₹ 200
• Maths. Practical	₹ 80	• Maths. Practical	₹ 80
• Science Practical	₹ 80	• Science Practical	₹ 80
• S. Science Practical	₹ 80	• S. Science Practical	₹ 80

मिलते जुलते नाम वाली नकली पुस्तकों से सावधान !